



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39। नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2008 (आश्विन 5, 1930)
No. 39। NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2008 (ASVINA 5, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2008

संख्या 480, दिनांक 11 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारी श्री रविन्द्र मोंगा को दिनांक 19 जून, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में उप वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 19 अगस्त 2008

राष्ट्रपति, श्री एस. पी. सिंह तिवोटिया को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 7.7.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक सहायक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

रमेश कुमार
निदेशक (वित्त/स्था.)

थल सेना विभाग

सं. 481, दिनांक 11 सितम्बर 2008--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

डी आर-10589 एच दीपक कालिया, 21 फरवरी 2008

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
एडीबीडीएस

सेना विभाग
नियमित सेना

सेना सेवा कोर
(यांत्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 482, दिनांक 11 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

सूबेदार मेजर (पीए)

सूबेदार टी पंचानाथम (जेसी-641648एच), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडीएसडी)

सूबेदार निरंजन दास (जैसी-641001पी), 01 मई 2008

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी)

सूबेदार जी सौंदरम (जैसी-640221एम), 03 मार्च 2008

सूबेदार एम फरोमानी (जैसी-640659एच), 03 मार्च 2008

सूबेदार मंगलसिंह रावत (जैसी-640727एल), 02 मई 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी)

सूबेदार क्रिष्णाकुमार रावत (जैसी-640412एफ), 31 मार्च 2008

सूबेदार सूर्यनाथ राम (जैसी-215516के), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार सुंदरन ए (जैसी-217862वाई), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार संतराम (जैसी-640382पी), 01 मई 2008

सूबेदार चंद्रिका प्रसाद (जैसी-640410डब्ल्यू), 01 मई 2008

सूबेदार नोर्वेन शेरपा (जैसी-640452एच), 17 मई 2008

सूबेदार मेजर (एमटी)

सूबेदार सुदामा प्रसाद (जैसी-662193एल), 01 अप्रैल 2008

सूबेदार शंकर दयाल राम (जैसी-662171एम), 04 अप्रैल 2008

सूबेदार राम शंकर निवार्य (जैसी-662195डब्ल्यू), 01 मई 2008

सूबेदार मशानबीर (जैसी-662194एन), 01 मई 2008

सूबेदार रामजीवन (जैसी-662196वाई), 01 मई 2008

सूबेदार गर्जेंद्रपाल सिंह सिसोदिया (जैसी-662197एफ), 01 मई 2008

सूबेदार (एमटी)

नायब सूबेदार चंद्रा प्रकाश पांडेय (जैसी-662902पी), 10 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार गजेश कुमार शुक्ला (जैसी-662947एन), 18 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार उपेश बोर (जैसी-662952ए), 18 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अश्वेश नारायण पाठक (जैसी-662965एच), 23 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार नेनी गोपाल कार (जैसी-662974वाई), 06 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार दमाडा बाबू राय (जैसी-663130पी), 16 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार चंदा धरन काकती (जैसी-663153डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जैसी-663178ए), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार नरेंद्र कुमार होंस (जैसी-663181एच), 12 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार बारिया रंजीत सिंह सूर सिंह (जैसी-663236एन), 12 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सुलतान सिंह बरध (जैसी-663244ए), 18 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मोती लाल (जैसी-663338एक्स), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राजू बं एम (जैसी-663341एक्स), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लाल अताश शर्मा (जैसी-663342ए), 13 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्री भगवान पंडित (जेसी-663344एल), 17 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम शक्त भगत (जेसी-663358एल), 17 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम भूर्ती सिंह (जेसी-663430डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार दशरथ पो डी यादव (जेसी-663431वाई), 11 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-663432एफ), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार क्रिशन माल (जेसी-663435पी), 10 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार चेतन सिंह (जेसी-663441एच), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राज किशोर सिंह (जेसी-663472एच), 15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रामाधर प्रसाद (जेसी-663480एफ), 16 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार एस एन सिंह (जेसी-664111डब्ल्यू), 06 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

सूबेदार (आर्टी)

नायब सूबेदार रत्नाकर तिवारी (जेसी-661067एम), 27 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार धनंजय कुमार (जेसी-660994एम), 13 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शिव राघ मिश्रा (जेसी-660988ए), 20 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विमल चंद्र शुक्ला (जेसी-660990एक्स), 18 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

सूबेदार (एमटी)

नायब सूबेदार जो सी बरुआ (जेसी-662901एम), 04 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार बी के पी एन तिवारी (जेसी-663760पी), 31 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार जे के राय (जेसी-663761एक्स), 04 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार एस एन सिंह (जेसी-664111डब्ल्यू), 06 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मेम्वर खान (जेसी-662896एम), 09 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विजय बहादुर (जेसी-662949ए), 23 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार माया राम रातोर (जेसी-663221वाई), 06 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब चुबेदार अब्दुल्लाह सिंह (जेसी-662956डब्ल्यू), 04 अगस्त
2007*

* (नाथय सवेदार के रेंक में व्रतन और भर्तों की प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 0; जन 2007 से ही जायेंगी)।

नामच सूर्येदार आशुतोष गोगुली (जेसी-663105डब्ल्यू), 07 अगस्त 2007 *

* (नायब सूबेदार क रैंक पे वेतन और भत्तों को प्रभावित किये गिना करिष्ठता 01 जन 2007 से ही जायेगी)।

नायब सुबेदार राजपाल सिंह (जेसी- 662959के), 31 जुलाई 2007*

* (नायब सुब्बदार के रैंक में तैनात और भत्तों का प्रभावित बिन्दु बिना वरिष्ठता 01 जन 2007 से दी जायेगी)।

नायब सज्जेदार सी एम प्रकाश राय (जैसी-662962कै), 09 अगस्त 2007*

* (नायब सुप्रेटेंडेंट के बैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किसे बिना वरिष्ठता (1) जन 2007 से दो जायेगा)।

माधव सुबेदार अमर वल्लदुर सिंह (जेसो-663144पी), 19 थागस्त
2007*

* (नायब सूच्यदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित करने बिना वरिष्ठता 01 जन 2007 से दी जायेगी)।

नाथब सूर्यदास कालंदी धरन दास (जेसी-662981पे), 07 अगस्त 2007 *

* (नाश्व सूक्ष्मर के रेंक पे खेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायक सूखेदार भुर्गालि कुमार (जैसे-663120एल). 03 अगस्त
2007*

* (नावच सूचेदार के रैंक में वृद्ध और भर्तों को प्रभावित जिन बिना वरिष्ठता 01 जलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सुवेदर विरेंद्र कुमार (जेस्रो-६६३।२७पी), ०७ अगस्त २००७*

* (नायब सुप्रेन्टेंडेंट के रैंक में तैनात और भर्ती को प्रभावित करने वाला वरिष्ठता) 01 जुलाई 2007 से ही जायेगी।

नायब सूवेदार उदय नारायण गोस्वामी (जैसे-663)32ए),
05 अगस्त 2007*

* (नायब सुन्दार के रैंक में सेवानिवृत्ति और भत्तों के प्रभावित किये बिना बरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब मुख्तियार प्रसन्ना कुमार जी (वेसॉ 663278एन), 14 अप्रैल 2007*

* (नायब सूत्रेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित करने बिना वसिहत 91 अगस्त 2007 में दी जायेगी)।

नायब सुबेदार: रमेश कुमार (जैसा-663229एल), 16 अगस्त 2007 *

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित जिन्य नियम वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सचिवदार पुर= लाहोर (फोन-663230ए), 17 अगस्त 2007

* (नायब सूवेदार के रैंज में वृत्त और भर्तों को प्रभावित करने तथा वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मरन कुमार बिस्वाल (जे.सी. 663165721).
17 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में पेंशन और भत्तों को प्रभावित किया गया।
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दो जायेगी)।

नायब सूबेदार सुरेश भावू नं एन (जंसी-663177ए), 20 अगस्त
2007*

*(नाथब सूर्येदार के रंक में धेतन और भत्तों को प्रभावित किंग्स थिन: वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सबंदार रमेश गूढ (जसो-०६३२३९५०), १६ अगस्त २००७ *

* (नायब सूचदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किया गया वारिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दो जखेगो)।

नायब सूबेदार रमेश कुमार शुक्ला (जैसे-662947पी), 18 अगस्त
2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में अंतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जर्मी-662894एफ), 01 अगस्त 2007

* (नायब सूबेदार के रैंक में व्रत और भत्तों को प्रभावित किये बिना वार्षिकता 01 जन 2007 से ही जययोगी)।

नायब सूबेदार रामचंद्र दास (फैसले ०६२९००के), २० जून २००७

* (नायब सूबेदार कं रेंच में वंता और भनों को प्रभावित क्रिये 'अनवरिष्टता 01 जन 2007' में दे जायेगी)।

नायब सुबेदार मदन चौधरी (सेनॉ-662895के), 06 अगस्त 2007

* (नायब सूवेदार के रैंक में पेंशन और भत्तों को प्रभावित किया बिना वरिष्ठता 01 जन 2007 में दी जायेगी)।

नायब सुबेदार जगरूप सिंह (जेमी-663337पी), 20 अगस्त 2007[†]

* (नायब सूवेदार के बैंक में धरोर और धत्तों का प्रभावित किये गिना बरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दे जायेगो)।

नायब सूबेदार अर. सो. ३५५ जैहान (जैसा-662899ए), 07 अगस्त
2007*

* (नाथन सूखेदार के बैंक में जेबन और भत्तों को प्रभावित किये गये वार्षिकता 01 जन 2007 से दो जगहों पर।)

नविव सवदाग काका. माण्डस पी (जेसी-662887एल), 12-2007 *

* (नाथद सूखेदार को रेंफ में बंदन और भनों को प्रभावित किये किंग
वरिष्ठता 01 मई 2007 से हो जायेगी)।

नायब सूबेदार अरुण कुमार अबस्थी (जेसी-662893वाई), 16 जून 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम दवन (जेसी-663762ए), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सूर्या प्रसाद शुक्ल (जेसी-663163ए), 24 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सुदामा पांडेय (जेसी-662752के), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार मोहिंद्र सिंह (जेसी-662833के), 02 जून 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-662757एच), 14 जुलाई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पस्तन सिंह (जेसी-662877एफ), 01 मई 2007

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-662777डब्ल्यू), 29 जून 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लव कुश तिवारी (जेसी-662832एफ), 22 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्री तहसीलशर (जेसी-662842एल), 26 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार प्रफुल्ला चंद्र प्रधान (जेसी-662767एम), 24 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विजय बहादुर (जेसी-662770एम), 01 जून 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पंकज कुमार चक्रवर्ती (जेसी-662797के), 20 जुलाई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सहाजी कुमार के बी (जेसी-662939डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार तेज नारायण सिंह (जेसी-662818पी), 26 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार असान अली एस के (जेसी-663167डब्ल्यू), 17 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार डीगे बी जगन्नाथ (जेसी-662807एच), 01 मई 2007 *

नायब सूबेदार राजेश्वर शर्मा (जेसी-662903एक्स), 01 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार उमेश बोरा (जेसी-662952ए), 18 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार तारा चंद (जेसी-662905एच), 01 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विनोद कुमार ढोडीयाल (जेसी-663103एल), 02 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कोयनगेश्वर राय (जेसी-663143एम), 08 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जेसी-663282डब्ल्यू), 17 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-662958एफ), 18 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह (जेसी-663166एन), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

* (नाथब सूजेदार के रैंक में वृद्ध और भत्तों को प्रभावित किया गया।
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

* (नाथच सूचदार के रैंक में पैतन और भर्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 0। जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार निवास सिंह (जेसी-663122डब्ल्यू), 07 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-663123वाई), 06 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार जोगिंदर पाल (जेसी-663124एफ), 03 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कापेश्वर सिंह (जेसी-663109एम), 06 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-663150एच), 07 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राम निवास यादव (जेसी-663161पी), 18 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार महिंदर चौधरी (जेसी-663133एच), 17 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शयमा कान्त अगस्ति (जेसी-663156के), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार महाराज सिंह (जेसी-663157एम), 16 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह (जेसी-663228एच), 17 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मुकिनाथ सिंह (जेसी-663153एक्स), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अवध किशोर (जेसी-663279डब्ल्यू), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार दुर्गा सिंह (जेसी-663159एक्स), 20 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार गिरीश बी चौ (जेसी-663234डब्ल्यू), 18 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (आरटी)

नायब सूबेदार अजीत कुमार पांडेय (जेसी-662603डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार दिलीप कुमार मिश्रा (जेसी-662604वाई), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार राकेश प्रसाद मिश्रा (जेसी-662605एफ), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार रामेश्वर पाठक (जेसी-663450के), 10 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार देवेंद्र कुमार स्वामी (जेसी-663451एम), 10 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-663470एक्स), 10 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सर्वेश नाथ तिवारी (जेसी-663471ए), 10 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेश पुरी गोस्वामी (जेसी-664031वाई), 20 मई 2006

नायब सूबेदार दीपक कुमार शुक्ल (जेसी-664233ए), 16 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार प्रभाकर पांडेय (जेसी-664234एच), 16 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार माना राम बिसनोई (सं. 13888816एल अब जेसी-664073एल), 12 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)।

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 3382811डब्ल्यू अब जेसी-664615के), 09 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मुहम्मद मिराज सरदार (सं. 13887001एक्स अब जेसी-664624एल), 09 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव लाल बरोदिया (सं. 13887399एक्स अब जेसी-664508एच), 01 जुलाई 2007

हवलदार नरेंद्र कुमार (सं. 13887466एक्स अब जेसी-664594वाई), 01 अगस्त 2007*

हवलदार ब्रिज बिहारो सिंह (सं. 13887544के अब जेसी-664661वाई), 01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रमेश सिंह (सं. 13887946एफ अब जेसी-664477एन), 01 जुलाई 2007

हवलदार रमेश चंद्र (सं. 13887960एन अब जेसी-664457ए), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार विजय कुमार (सं. 13889227एफ अब जेसी-664589एन), 20 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 25 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रूप चंद (सं. 13889298एच अब जेसी-664655एल), 01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 13889480एच अब जेसी-664590एच), 04 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बसोभकेश प्रधान (सं. 13889663वाई अब जेसी-664622ए), 14 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मुरलोधर साहू (सं. 13890101एन अब जेसी-664541ए), 27 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 25 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुनंज नाथ (सं. 13890109ए अब जेसी-664476एल), 16 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बकूल कुमाः सेनी (सं. 13890215वाई अब जेसी-664334एन), 01 जून 2007

हवलदार अमीर चंद मिश्र (सं. 13890324एल अब जेसी-664612डब्ल्यू), 30 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13890668के अब जेसी-664461एच), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गिरीजा शंकर शर्मा (सं. 13890836एक्स अब जेसी-664620पी), 13 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरी राम (सं. 13890868ए अब जेसी-664449एफ), 01 जुलाई 2007

हवलदार सुधीर यादव (सं. 13890875डब्ल्यू अब जेसी-664626डब्ल्यू), 14 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव भजन (सं. 13890923एल अब जेसी-664634पी), 27 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार करण जोर सिंह (सं. 13891128एक्स अब जेसी-664462एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार शिव शंकर राहू गुप्ता (सं. 13891386एक्स अब जेसी-664470के), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गणेश चौधरी (सं. 13891404पी अब जेसी-664691एल), 07 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार छदारी राय (सं. 13891489डब्ल्यू अब जेसी-664593एल), 03 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार महाराज सिंह (सं. 13891575एफ अब जेसी-664616एम),
11 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बल्लोच प्रसाद (सं. 13891691के अब जेसी-664636ए),
15 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शलेन्द्र सिंह (सं. 13891806एम अब जेसी-664618एक्स),
14 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार नर सिंह नारायण दुबे (सं. 13891837एम अब जेसी-
664475एच), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार देवानंद नाम्देवराव (सं. 13891839एक्स अब जेसी-
664621एक्स), 17 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भोपाल सिंह बिष्ट (सं. 13891912एल अब जेसी-
664623एच), 20 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार कृष्णा चंद्र साहू (सं. 13894282एफ अब जेसी-
664635वाई), 10 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जी सम्पय (सं. 13894362वाई अब जेसी-664639एन),
13 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राधा बस्ती (सं. 13894471एल अब जेसी-664454एम),
01 जुलाई 2007

हवलदार भोला नाथ मोर्या (सं. 13894597एल अब
जेसी-664638एल), 14 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मुकेशवर महतो (सं. 13894647एल अब जेसी-
664545डब्ल्यू), 10 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रविंद्र नाथ चौहान (सं. 13894655के अब जेसी-
664637एच), 27 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लीला राम यादव (सं. 13894659एअब जेसी-
664627वाई), 18 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार महोमद अपसर अली (सं. 13894753के अब जेसी-
664595एफ), 04 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बिनोद बिरहारी सेठी (सं. 13894860एल अब जेसी-
664540एक्स), 10 जुलाई 2007

हवलदार मोहन स्वामी (सं. 13895042डब्ल्यू अब जेसी-664629के),
24 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रदीप पाठक (सं. 13895088वाई अब जेसी-664633एम),
14 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार निम्बा राम धीरू (सं. 13895112के अब जेसी-
664630वाई), 16 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार कैलाश कुमार (सं. 13895145पी अब जेसी-
664593डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007*

हवलदार राम दुलारे (सं. 13895343ए अब जेसी-664625एन),
16 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार विशन सिंह (सं. 13895419पी अब जेसी-664610एल),
13 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शैख पीर अहमद (सं. 13895546के अब जेसी-
664469पी), 02 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बंदा श्रीनिवास रेड्डी (सं. 13895991एच अथ जेसी-664474ए), 11 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम पूर्णा प्रिंट यादव (सं. 13897189एच अथ जेसी-664472पी), 01 जुलाई 2007

हवलदार लक्ष्मण मंडेय (सं. 13897280इक्वु अथ जेसी-664631एफ), 10 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुप्रता दत्त (सं. 13897513एक्स अथ जेसी-664507ए), 03 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार श्री रंग विन्दु गोडे (सं. 13897541एच अथ जेसी-664632के), 16 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रचल प्रताप सिंह (सं. 13897615एच अथ जेसी-664544एन), 05 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 13897648आई अथ जेसी-664448आई), 03 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार अर्जुन मुभाष पीडित (सं. 13897731इक्वु अथ जेसी-664538ए), 10 जुलाई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेश चंडा (सं. 13897871एच अथ जेसी-664612एच), 16 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

सूबेदार (एसकेट)

नायब सूबेदार रम सिंह राणा (जेसी-642443ए), 02 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार मधुपल मिश्र (जेसी 642357पी), 20 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 05 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-642477एन), 09 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार चवान अगदू बापू (जेसी-642480एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार अर्जुन लाल (जेसी 642568एक्स), 29 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-642585एक्स), 01 जून 2007

नायब सूबेदार चन्द्रका आंजा (जेसी-642569ए), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार युवराज कामा (जेसी-642571एक्स), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार शिंदे शिवजी संत राम (जेसी-642571ए), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार राम दिवाण (जेसी 642573एच), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार शिवा नागचंद रास (जेसी-642574एल), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार रोहताश (जेसी-642575एन), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार अखिल देव मंडल (जेसी 642570पी), 24 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राकेश कुमार पचौरी (जेसी 642444एच), 28 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रमेश कुमार सिंह (जेसी 642578एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-642589एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार मोहन क (जेसी-642591एल), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार एस के पट्टाचंन (जेसी 642595एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार गोपाल जयल सिंह रास (जेसी-642598पी), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार सपुरदे रामदास पाट्ट (जेसी-642599एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-642562ए), 03 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

सूबेदार लिपिक (जीडी/एसडी)

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-642717ए), 15 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अशरफी लाल (जेसी-643169ए), 12 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार विघन चन्द्र विश्वास (जेसी-643171एक्स), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार आशा राम (जेसी-643174एल), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार रजित सरकार (जेसी-643146वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार फिशप फेजे (जेसी-643127एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार लालजो राम (जेसी-643128डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र राणा (जेसी-643129वाई), 28 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रोहिताश कुमार यादव (जेसी-643168डब्ल्यू), 18 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रामविर सिंह (जेसी-643173एच), 21 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार औमन पोटी (जेसी-643141एल), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार हरदिव सिंह (जेसी-643239एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार मैथ्यू पी पी (जेसी-643123एक्स), 07 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार सुनिल कुमार (जेसी-643125एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार पर्वत कुमार कर (जेसी-643124ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार बृन्दावन महापतरा (जेसी-643126एल), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राम किशोर मिश्रा (जेसी-643170पी), 25 फरवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)।

सूबेदार लिपिक (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार उदय भान (जेसी-662923एल), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-662924एन), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राजपती मिश्रा (जेसी-663034ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बेनुगोपालन के के (जेसी-643232के), 19 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-643231एफ), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार प्रविन सिंह मेहता (जेसी-643234पी), 21 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार भूपालन डी (जेसी-643233एम), 21 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अंगद प्रसाद गुप्ता (जेसी-662922एच), 15 जनवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

सूबेदार लिपिक जीडी/एसडी

नायब सूबेदार तारकेश्वर सिंह (जेसी-642542एच), 17 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पंकजाक्षन के पी (जेसी-642837वाई), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार देशराज सिंह पुंडिर (जेसी-642838एफ), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार एस एन राम (जेसी-642847एच), 28 अगस्त 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार नसीब सिंह (जेसी-642853डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार शम्भु दयाल पांडेय (जेसी-642946एल), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार ईश्वर दत्त शर्मा (जेसी-642990पी), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार मॉनिक लाल शर्मा (जेसी-643003वाई), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार चभुसूदन मोहन्यी (जेसी-643015एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार हंगर सिंह (जेसी-643016डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-643053के), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार रजु टी एस (जेसी-643054एम), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार वाई एल नारायण (जेसी-643062एल), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार कृष्ण मोहन शुक्ला (जेसी-643063एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार इंरी लाल (जेसी-643106एक्स), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार ए कं पांडेय (जेसी-642409ए), 22 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 26 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-642831एक्स), 21 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रमा शंकर राय (जेसी-642873के), 23 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार बलदेव पंडित (जेसी-642947एन), 18 सितम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार भोल्लू राम (जेसी-643017वाई), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-643018एफ), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार नन्दन सिंह भुक्ता (जेसी-643019के), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार शानू सिंह (जेसी-643020वाई), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार जीव नन्को (जेसी-643066एफ), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार नारायण शाह (जेसी-642713के), 01 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 26 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार चिन्मय कृष्ण प्रजापति (जेसी-643107ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-643065वाई), 01 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार रामलाल प्रसाद जी (जेसी-642867एक्स), 01 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 26 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-643109एल), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार गोष्णुला नन्द चन्दा (जेसी-642727के), 19 नवम्बर 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 26 जून 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार नाथी लाल (जेसी-643113एन), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार दया कृष्ण भट्ट (जेसी-643112एल), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्रा सिंह (जेसी-643111एच), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राजकुमार सिंह (जेसी-643110ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रुम सिंह (जेसी-643114डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राधेश्याम देवगानी (जेसी-643115वाई), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रामन मुनि चोएन प्रसाद (जेसी-643116एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार हरबक्स सिंह (जेसी-643117के), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार दिनेश्वर तिवेदियान (जेसी-643119पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार रमेश पी (जेसी-643118एम), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार श्री कुमार एनमी (जेसी-643172ए), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्रा प्रसाद यादव (जेसी-643122पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार गणेश कुमार आर (जेसी-643236ए), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार दल बहादुर पाल (जेसी-643158एन), 01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिन्हा (जेसी-643159डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2007

नायब सूबेदार बाबु लाल चौधरी (जेसी-643160एल), 01 सितम्बर
2007

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-643161एन), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार नारायण एस (जेसी-643162डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार प्रमोद नारायण सिंह (जेसी-643166एम), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार चिनीता चन्दन (जेसी-663973एच), 01 अक्टूबर
2007

नायब सूबेदार लक्ष्मण प्रसाद (जेसी-643229के), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-643163वाई), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार मंगल सिंह राणा (जेसी-643179के), 01 दिसम्बर
2007

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-643164एफ), 05 दिसम्बर
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार झा (जेसी-643177वाई), 01 दिसम्बर
2007

नायब सूबेदार महक सिंह मलिक (जेसी-643178एफ), 01 दिसम्बर
2007

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-643230वाई), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार भोजन व्यवस्थापक

नायब सूबेदार चंद्रभान यादव (जेसी-680392एफ), 17 नवम्बर
2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार शम्भु प्रसाद यादव (जेसी-680393के), 01 जनवरी
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार गिरजा शंकर (जेसी 680394एम), 17 मई 2007

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार प्रभु नाथ सिंह (जेसी-680395पी), 31 जनवरी
2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार बाला ईश्वरा राव (जेसी-680441वाई), 05 अक्टूबर
2007

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार पुनमवीति बिजु (जेसी-680442एफ), 01 नवम्बर
2007

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार राश बिहारी त्रिपाठी (जेसी-680456वाई), 10 जनवरी
2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कृपासे अशोक शिवप्पा (जेसी-680459पी),
16 फरवरी 2008*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार भोजन व्यवस्थापक

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-663606डब्ल्यू), 22 मई 2006

नायब सूबेदार अमित शर्मा (जेसी-663607वाई), 22 मई 2006

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-663608एफ), 22 मई 2006

नायब सूबेदार अजय कुमार (जेसी-663609के), 22 मई 2006

नायब सूबेदार जाखर गुरदीप सिंह (जेसी-663610वाई), 22 मई
2006

नायब सूबेदार जसविंदर सिंह (जेसी-663611एफ), 22 मई 2006

नायब सूबेदार मंजुल भट्ट (जेसी-663612के), 03 जुलाई 2006

नायब सूबेदार आशिष कुमार (जेसी-663613एम) 22 मई 2006

होपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद पर

नायब सूबेदार देव राज मौर्या (जेसी-226940पी), 28 अप्रैल
2008/01 जनवरी 2008*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-266709एम), 28 अप्रैल
2008/01 जनवरी 2008*

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-269110के), 25 फरवरी
2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-266676एम), 25 फरवरी 2008/01
जनवरी 2008*

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम मिश्रा (जेसी 268642एक्स), 05 मार्च
2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार दहलौडि दत्तात्रय (जैसी-268006के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार फौ शेखर मांखरे (जैसी-268468डब्ल्यू), 16 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार ऊर्ज सिंह (जैसी-268658एच), 22 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*

नायब सूबेदार राजेन्द्र रामलाल जनवाल (जैसी-266879डब्ल्यू), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार संदीप शर्मा (जैसी-267593एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार इन्दल सा (जैसी-267681के), 12 मार्च 2008/01 मार्च 2008*

नायब सूबेदार राकेश सिंह (जैसी-267806डब्ल्यू), 29 मार्च 2008/01 मार्च 2008*

नायब सूबेदार भरतचन्द्राकेशर पिल्लै सा के (जैसी-268977एक्स), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जैसी-268001एल), 10 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार हुकुम चन्द (जैसी-267800पी), 25 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार विजय नारायण राम (जैसी-267527एल), 10 मई 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार धर्मे पल्ल सिंह (जैसी-267437के), 28 जून 2008/01 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार बी विजया नरसिमलू (जैसी-269040डब्ल्यू), 02 मई 2008/28 अप्रैल 2008*

नायब सूबेदार माने मुल्लाधर भानूदास (जैसी-263836एन), 17 मई 2008/01 मई 2008*

नायब सूबेदार गन्नावेणू आर (जैसी-267704ए), 01 मई 2008

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पं. राना आरजो
अवर सचिव

सं. 483, दिनांक 12 मिनम्बर 2008 - राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :-

निर्दिष्ट सेना विभाग

इन्फैन्ट्री

मिख हाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार गुरमंत सिंह (सं. 4471559एन अब जैसी-509574डब्ल्यू), 09 जून 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लाभ सिंह (सं. 4464677आई अब जैसी-509575वई), 14 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुखबोर सिंह (सं. 4469059एक्स अब जैसी-509576एफ), 28 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार करनैल सिंह (सं. 4467504एम अब जैसी-509577के), 10 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 4464459ए अब जैसी-509578एन), 14 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 4465149एफ अब जैसी-509579पी), 14 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरुवक्ष सिंह (सं. 4470087डब्ल्यू अब जैसी-509580के), 16 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गोधवीर सिंह (सं. 4468266एक्स अब जैसी-509581एन), 13 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4465585वाई अब जैसी-509583एक्स), 16 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार बलविन्द सिंह (सं. 4467674डब्ल्यू अब जैसी-509584ए), 20 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 4468481एच अब जेसी-509585एच),
14 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार बलजिन्दर सिंह (सं. 4467076वाई अब जेसी-509586एच), 28 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क) (जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) जगदीश सिंह मेहता (सं. 4467184एच अब जेसी-509582पी), 05 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार रजजोत सिंह (सं. 4465935ए अब जेसी-509557डब्ल्यू),
01 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरबक्श सिंह (सं. 4465499एन अब जेसी-509558वाई),
02 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह (सं. 4469391एन अब जेसी-509559एफ),
14 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भूपिन्दर सिंह (सं. 4469557के अब जेसी-509560डब्ल्यू),
05 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार किशोरी सिंह (सं. 4465194एन अब जेसी-509561वाई),
23 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरबंश सिंह (सं. 4466964एफ अब जेसी-509562एफ),
01 सितम्बर 2007

हवलदार नक्षतर सिंह (सं. 4465232वाई अब जेसी-509563के),
05 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 4466364वाई अब जेसी-509564एम),
28 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4469977के अब जेसी-509565पी),
17 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जगतार सिंह (सं. 4467385के अब जेसी-509566एक्स),
11 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार वरिन्दरपाल सिंह (सं. 4469442डब्ल्यू अब जेसी-509567ए), 05 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4465894एफ अब जेसी-509568एच),
22 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार नरिन्दर सिंह (सं. 4466283वाई अब जेसी-509569एल),
22 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4464527एच अब जेसी-509571एच),
21 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) जरनैल सिंह (सं. 4464373एफ अब जेसी-509570ए), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार यादव (सं. 4464875के अब जेसी-509572एल), 01 जनवरी 2008

हवलदार (क्लर्क) रघवीर सिंह (15354304डब्ल्यू अब जेसी-509573एन), 01 जनवरी 2008

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार अंग्रेज सिंह (सं. 4467506एक्स अब जेसी-509540एच),
15 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 4466244ए अथ जेसी-509541एन),
20 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार करनैल सिंह (सं. 4465039एम अथ जेसी-509542एन),
10 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 4468248पी अथ जेसी-509543इएन्यू),
01 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सतवर्त सिंह (सं. 4467019एक्स अथ जेसी-509544वाई),
20 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 4465941एन अथ जेसी-509545एफ),
20 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4465798एन अथ जेसी-509546जे),
13 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार तमनेम सिंह (सं. 4469753पी अथ जेसी-509547एम),
18 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लखवीर सिंह (सं. 4468571के अथ जेसी-509548पी),
21 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार तमनेम सिंह (सं. 4467523एक्स अथ जेसी-509549एक्स),
17 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार तमनेम सिंह (सं. 4465934एक्स अथ जेसी-509550एक्स),
20 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 4465319ए अथ जेसी-509553ए),
18 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरदीप सिंह कूट (सं. 4464496एन अथ जेसी-509554एच),
20 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क) (जोड़ी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) जस चन्दन खी (सं. 4467180एम अथ जेसी-509550एम), 01 सितम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क) गंगा राम (सं. 4467183ए अथ जेसी-509551पी),
10 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) जेन चन्द (सं. 4462015एक्स अथ जेसी-509555एल), 09 अक्तूबर 2007*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (जोड़ी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2007 से दी जायेगी)।

गहर रजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रकाश कृष्ण (सं. 8032542पी अथ जेसी-569947एच)
01 मार्च 2007**

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जनवरी 2007)।

हवलदार जगदाल सिंह (सं. 4557653एफ अथ जेसी-569948एल),
30 मार्च 2007@@@

@@@((बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2007)।

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 7430757एम अथ जेसी-569949एल),
01 अप्रैल 2007

हवलदार ग्ल्याड भूमि (सं. 4557688एक्स अथ जेसी-569950एच), 25 अप्रैल 2007#

हवलदार सुख नन्दन (सं. 4558226एक्स अथ जेसी-569951एल),
25 अप्रैल 2007#

हवलदार बनसोदे जयशंकर ज्ञानदेव (सं. 4558265इएन्यू अथ जेसी-569952एल) 01 मई 2007#

हवलदार बलधीर सिंह (सं. 1558401एफ अथ जेसी-569953इएन्यू),
21 मई 2007#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2007)।

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 4558915वाई अब जेसी-569954वाई),
01 अप्रैल 2007

हवलदार पुरुषोत्तम सिंह (सं. 4558917के अब जेसी-569955एफ),
01 अप्रैल 2007

हवलदार राम किशन (सं. 4554453ए अब जेसी-569956के),
01 मई 2007

हवलदार तारा चन्द (सं. 4555842एम अब जेसी-569957एम),
03 मई 2007\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2007)।

हवलदार काम्बले महादेव रामा (सं. 4559908पी अब जेसी-
569958पी), 01 मई 2007

हवलदार दरवान सिंह (सं. 4554314डब्ल्यू अब जेसी-569959एक्स),
21 जुलाई 2007\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 जून 2007)।

हवलदार सतबीर (सं. 4557636एफ अब जेसी-569960एम),
01 जुलाई 2007

हवलदार इन्द्रपाल सिंह (सं. 4555547के अब जेसी-569961पी),
02 अगस्त 2007##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2007)।

हवलदार बिरकिठ हुसैन (सं. 4554699वाई अब जेसी-
569962एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार छवि नन्दन सिंह (सं. 4557639पी अब जेसी-569963ए),
01 अगस्त 2007

हवलदार शिव सिंह (सं. 4555803एन अब जेसी-569964एच),
03 अप्रैल 2007@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2007)।

हवलदार घाह राम (सं. 4557166एफ अब जेसी-569965एल),
21 जुलाई 2007@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 अप्रैल 2007)।

हवलदार काम्बले धर्मा गानु (सं. 4558605एन अब जेसी-
569967डब्ल्यू), 05 जून 2007#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2007)।

हवलदार राजिन्द्र कुमार राठीर (सं. 4556805एल अब जेसी-
569967डब्ल्यू), 14 जून 2007##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2007)।

हवलदार क्रिशन पाल सिंह (सं. 4556842वाई अब जेसी-
569968वाई), 01 जून 2007

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13617106ए अब जेसी-569969एफ),
21 जुलाई 2007###

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2007)।

हवलदार राम नरेश सिंह (सं. 4069745एक्स अब जेसी-
569970डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2007\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2007)।

हवलदार विद्या भूषण (सं. 4553376के अब जेसी-569971वाई),
09 जून 2007\$\$

हवलदार कुमार कदम प्रकाश भीमराव (सं. 4557106एम अब
जेसी-569972एफ), 11 जून 2007\$\$

हवलदार लिलामणि लामसल (सं. 4557243एल अब जेसी-
569973के), 09 जून 2007\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 22 मार्च 2007)।

हवलदार धर्मेन्द्र कुमार (सं. 4556207एन अब जेसी-569974एम),
26 जुलाई 2007\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 जून 2007)।

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4554790पी अब जेसी-569975पी),
17 जुलाई 2007&

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2007)।

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 4559837वाई अब जेसी-
569976एक्स), 30 जुलाई 2007&&

&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 जुलाई 2007)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4560166एम अब जेसी-569977ए),
01 अगस्त 2007

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 4562543डब्ल्यू अब जेसी-569978एच),
06 अगस्त 2007&&&

&&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2007)।

हवलदार हरेन बोरो (सं. 4554833वाई अब जेसी-569930पी),
01 जून 2007

हवलदार रामेश्वर राम (सं. 4554874एच अब जेसी-569931एक्स),
01 जून 2007

हवलदार धन सिंह (सं. 4558973एच अब जेसी-569932ए),
01 जून 2007

हवलदार हरि सिंह भाटी (सं. 4559045वाई अब जेसी-569933एच),
03 जुलाई 2007@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 16 जून 2007)।

हवलदार कमलेश चन्द्र बिस्वास (सं. 4555722एन अब जेसी-
569934एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार पुश्कर सिंह (सं. 4555617एक्स अब जेसी-569935एन),
01 जुलाई 2007

हवलदार राकेश चन्द्रा (सं. 4560220पी अब जेसी-569936डब्ल्यू),
01 जुलाई 2007

हवलदार लिपिक राज कुमार (सं. 4562541एल अब जेसी-
569937वाई), 02 अप्रैल 2007

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2007)।

हवलदार लिपिक अनिल कुमार (सं. 4562542एन अब जेसी-
569938एफ), 01 जून 2007

हवलदार बुध राम (सं. 4560320ए अब जेसी-569939के),
01 जून 2007

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4554947के अब जेसी-569940वाई),
01 जुलाई 2007

हवलदार कुमार एन (सं. 4556133के अब जेसी-569941एफ),
01 जुलाई 2007

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4557139एक्स अब जेसी-569942के),
05 जुलाई 2007

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4557393एफ अब जेसी-569943एम),
05 जुलाई 2007

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4557480पी अब जेसी-569944पी),
05 जुलाई 2007

हवलदार रूप लाल (सं. 4557585वाई अब जेसी-569945एक्स),
05 जुलाई 2007

हवलदार रम सिंह (सं. 4557637के अब जेसी-569946ए),
05 जुलाई 2007

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2007)।

महाम रोजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रदीपन छमाथाइल (सं. 2591610एम अब जेसी-
439903एफ), 14 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार के राजी रेड्डी (सं. 2589012डब्ल्यू अब जेसी-
439902वाई), 27 अक्टूबर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मुकुन्दन पी (सं. 2591005वाई अब जेसी-439925एन),
05 सितम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार एन सुप्रथी (सं. 2588784एफ अब जेसी-439921के),
23 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार अन्नापु रेड्डी वेन्कट रेड्डी (सं. 2589649ए अब जेसी-
439922एम), 23 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार संजया कुमार के (सं. 2591332के अब जेसी-439912एच),
15 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार आर महेश कुमार (सं. 2601667एक्स अब जेसी-
439923पी), 27 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार देवेन्द्रप्पा एस के (सं. 2592564पी अब जेसी-
439938एक्स), 17 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार विनायगम के (सं. 2594887डब्ल्यू अब जेसी-439937पी),
4 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ऐल्लपु श्रीनिवास राव (सं. 2591871ए अब जेसी-
439927एल), 11 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रोजीकुमार के (सं. 2592579एक्स अब जेसी-439939ए),
17 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ए जयाराज (सं. 2591267पी अब जेसी-439943एच),
08 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार एस सैयद रिज्जुद्दीन (सं. 13751843एच अब जेसी-
439950वाई), 20 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरिन्दन (सं. 2591872एच अब जेसी-439951एफ),
19 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

होगरा रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन लाल (सं. 3986335एक्स अब जेसी-520656वाई),
06 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3986529ए अब जेसी-520657एफ),
08 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दत्ते सिंह (सं. 3984956एक्स अब जेसी-520658के),
26 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार केशर सिंह (सं. 3985113डब्ल्यू अब जेसी-520659एम),
29 अक्टूबर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रवीन्द्र कुमार (सं. 3985221ए अब जेसी-520660एफ),
29 अक्टूबर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ज्योती प्रकाश (सं. 3987008वाई अब जेसी-520661के),
30 नवम्बर 2007+

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ज्योति प्रकाश (सं. 3984684ए अब जेसी-520662एम),
18 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह सैनी (सं. 3986103वाई अब जेसी-520663पी),
20 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हुकम चन्द (सं. 3986333एम अब जेसी-520664एक्स),
13 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम लाल (सं. 3984861एक्स अब जेसी-520665ए),
18 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार किशोर कुमार (सं. 3984640एल अब जेसी-520666एच),
29 अक्टूबर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सरजीत सिंह (सं. 3984688वाई अब जेसी-520667एल),
29 अक्टूबर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सिमर सिंह (सं. 3984911एक्स अब जेसी-520668एन),
20 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जय किशन ठाकुर (सं. 3986600एच अब जेसी-
520669डब्ल्यू), 24 सितम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक होशियार अली खान (सं. 3987834वाई अब
जेसी-520670एल), 24 सितम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार उधम सिंह (सं. 3986946एम अब जेसी-520672डब्ल्यू),
15 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जनक सिंह (सं. 3985841डब्ल्यू अब जेसी-520673वाई),
26 सितम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3985540एम अब जेसी-520674एफ),
03 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3985463एच अब जेसी-520675के),
03 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3985571एम अव जेसी-520676एम),
03 जनवरी 2008:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 3986980एम अव जेसी-520677पी),
15 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 3987001पी अव जेसी-520678एक्स),
15 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मदन लाल (सं. 3991036एच अव जेसी-520679ए),
31 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार तिलक राज (सं. 3986081एल अव जेसी-520680पी),
11 जनवरी 2008:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 3986759एन अव जेसी-520681एक्स),
01 सितम्बर 2007:-

हवलदार कृष्ण सिंह (सं. 3986763डब्ल्यू अव जेसी-520682ए),
18 सितम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3986829एफ अव जेसी-520683एच),
20 नवम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरी राम (सं. 3986185एम अव जेसी-520684एल),
11 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह (सं. 3986834एम अव जेसी-520685एड),
20 नवम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार नरेश कुमार (सं. 3987003ए अव जेसी-520686डब्ल्यू),
15 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 3986039एम अव जेसी-520687वाइ),
22 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भावान दाम (सं. 3985753ए अव जेसी-5206883ए),
30 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मिलाप चन्द चाम्बेल (सं. 3986482ए अव जेसी-520689के), 11 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गन्धर्व सिंह (सं. 3988026एन अव जेसी-520690वाड),
11 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3990028एक्स अव जेसी-520691एफ),
11 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम पाल (सं. 3985267एच अव जेसी-520692के),
14 जनवरी 2008:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार अजय सिंह (सं. 3986277वाई अव जेसी-520693एम),
22 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3986249एम अव जेसी-520694पी),
26 दिसम्बर 2007:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 3985374के अव जेसी-520695डब्ल्यू),
14 जनवरी 2008:-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दलेल सिंह (सं. 3986742ए अब जेसी-520696ए), 26 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3986620डब्ल्यू अब जेसी-520697एच), 11 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम कुमार (सं. 3985439एम अब जेसी-520698एल), 14 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3986725ए अब जेसी-520699एन), 11 जनवरी 2008

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लोन्हे विठ्ठल नामदेव (सं. 2784530डब्ल्यू अब जेसी-459748एम), 24 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार पवार बालासाहेब विठ्ठल (सं. 2783515पी अब जेसी-459749पी), 14 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राणे दयानंद जनाबा (सं. 2785353एन अब जेसी-459750के), 14 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार पवार विजय विश्वनाथ (सं. 2784842एम अब जेसी-459751एम), 30 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार घाडगे अर्जुन तुकाराम (सं. 2785526ए अब जेसी-459752पो), 07 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बालासो नारायण पवार (सं. 2781925एम अब जेसी-459753एक्स), 13 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मनोज कुमार (सं. 2783802वाई अब जेसी-459754ए), 30 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भिकाजी महादेव खोत (सं. 2781635पी अब जेसी-459755एच), 25 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार धणे विठ्ठल सर्वेराव (सं. 2781636एक्स अब जेसी-459756एल), 25 नवम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार पाटील आबासाहेब एकनाथ (सं. 2785084एम अब जेसी-459757एन), 01 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार कावर गजानन लक्ष्मण (सं. 2786933पो अब जेसी-459758डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार खताल राजेंद्र चिंधु (सं. 2787242पो अब जेसी-459759वाई), 10 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार वजीर अली (सं. 2783727ए अब जेसी-459760एन), 03 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भोसले गणेश आबाजीराव (सं. 2783551ए अब जेसी-459761डब्ल्यू), 17 दिसम्बर 2007+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ठाकरे दिलीप दिगंबर (सं. 2784074डब्ल्यू अब जेसी-459763एफ), 01 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शिवप्पा मगदूम (सं. 2783955एच अब जेसी-459764के), 08 जनवरी 2008+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार खन्डे तानाजी गुण्डम्पा (सं. 2785532एन अब जेसी-459765एम), 20 जनवरी 2008

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जगताप पांडुरंग श्रीपती (सं. 2782788एल अब जेसी-459766पी), 6 जनवरी 2008

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार थोगत चक्रभुज अच्युतराव (सं. 2783572डब्ल्यू अब जेसी-459767एक्स), 22 दिसम्बर 2007

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शेख बाण्णा (सं. 2787782एम अब जेसी-459768ए), 11 जनवरी 2008

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार पावणे सर्वेश रामकृष्ण (सं. 2786850के अब जेसी-459769एच), 08 जनवरी 2008

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मनोहरन डी (सं. 2779864एफ अब जेसी-459770एक्स), 01 जनवरी 2008

हवलदार चिरके हरिभाऊ पाटीलशा (सं. 2785174एन अब जेसी-459771ए), 01 जनवरी 2008

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तारा चन्द (सं. 3179119ए अब जेसी-490198डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2007

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 3182935एफ अब जेसी-490199वाई), 17 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मगुन्दर सिंह (सं. 3179275के अब जेसी-490200एच), 9 दिसम्बर 2007

हवलदार धीरेन्द्र सिंह राणा (सं. 3179609एन अब जेसी-490201एल), 20 दिसम्बर 2007

हवलदार महोपाल सिंह (सं. 3179319डब्ल्यू अब जेसी-490202एन), 01 जनवरी 2008

हवलदार दिलेवाग सिंह (सं. 3181487एन अब जेसी-490203डब्ल्यू), 02 जनवरी 2008

हवलदार हरेंद्र सिंह खोका (सं. 3195658ए अब जेसी-490204वाई), 17 जनवरी 2008

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 3178855एम अब जेसी-490205एफ), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुरेंद्र पाल (सं. 3178869एम अब जेसी-490206के), 01 फरवरी 2008

हवलदार नरेन्द्र पाल (सं. 3183556एक्स अब जेसी-490207एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार ओमपाल सिंह (सं. 3186044डब्ल्यू अब जेसी-490208पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार बादाम सिंह (सं. 3179011एच अब जेसी-490209एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3179016एफ अब जेसी-490210एम), 01 फरवरी 2008

हवलदार राम स्वरूप महल्ला (सं. 3181837पी अब जेसी-490211पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 3180322एच अब जेसी-490212एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार सुभय सिंह कुल्ल (सं. 3182056एन अब जेसी-490213ए), 01 फरवरी 2008

हवलदार कृष्णवीर सिंह दुहण (सं. 2594084के अब जेसी-490214एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार चासी राम ठाका (सं. 2594207एल अब जेसी-490215एल), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रती राम (सं. 3178457एल अब जेसी-490216एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) मूने सिंह यादव (सं. 3178086एन अब जेसी-490217डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार सुभाष चन्द गधवाल (सं. 3178643एफ अब जेसी-490183एन), 29 दिसम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)।

हवलदार हुकम सिंह जट (सं. 3179570एम अब जेसी-490184डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार किशना राम (सं. 2593029एफ अब जेसी-490185वाई), 13 सितम्बर 2007

हवलदार राहुल सिंह (सं. 2593933एन अब जेसी-490186एल), 22 सितम्बर 2007

हवलदार दलबीर (सं. 3178603ए अब जेसी-490187के),
11 नवम्बर 2007

हवलदार राम प्रताप (सं. 3179568पी अब जेसी-490188एम),
11 नवम्बर 2007

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 13616829एच अब जेसी-490189पी),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 3180237ए अब जेसी-490190के),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दाना राम (सं. 3182201ए अब जेसी-490191एम),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दया चन्द (सं. 3179713एफ अब जेसी-490192पी),
01 जनवरी 2008

हवलदार ओम प्रकाश (3181118डब्ल्यू अब जेसी-490193एक्स),
01 जनवरी 2008

हवलदार विरेन्द्र (सं. 3181227एच अब जेसी-490194ए),
01 जनवरी 2008

हवलदार राजपाल सिंह, सेना मेडल (सं. 3181773पी अब जेसी-
490195एच), 01 जनवरी 2008

हवलदार श्री चन्द (सं. 3181252एफ अब जेसी-490196एल),
01 जनवरी 2008

हवलदार कोमल सिंह (सं. 3183945एक्स अब जेसी-490197एन),
01 जनवरी 2008

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जोगेंद्र (सं. 2883709एम अब जेसी-470172ए),
28 नवम्बर 2007/09 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मार्च 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 2881014एल अब जेसी-470173एच),
05 नवम्बर 2007/19 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क गिरवर सिंह (सं. 2882277डब्ल्यू अब जेसी-
470174एल), 05 अक्टूबर 2007/01 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2880634पी अब जेसी-470175एन),
05 नवम्बर 2007/01 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मोधा विंजा बोधा (सं. 2884079के अब जेसी-
470176डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2007/03 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार धर्म सिंह (सं. 2886006डब्ल्यू अब जेसी-470177वाई),
18 दिसम्बर 2007/23 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दयानन्द (सं. 2884414एच अब जेसी-470178एफ), 20
दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2886082एच अब जेसी-470179के),
11 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार भरसी राम (सं. 2880089डब्ल्यू अब जेसी-470180वाई),
01 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3989931पी अब जेसी-470181एफ),
02 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जय सिंह (सं. 3991000के अब जेसी-470182के), 18
नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 3178369पी अब जेसी-470183एम),
20 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार আবুল্লাস অসারী (सं. 2880293पी अब जेसी-
470184पी), 29 दिसम्बर 2007/22 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) सुरेश कुमार (सं. 2882443वाई अब जेसी-
470185एक्स), 02 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मिर्जा मेहरवान बेग (सं. 2883154डब्ल्यू अथ जेसी-470186ए), 03 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार अजयपाल सिंह (सं. 2882487डब्ल्यू अथ जेसी 470187एच), 14 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 2881696एफ अथ जेसी 470188एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार चतर सिंह (सं. 3989974के अथ जेसी 470189एन), 19 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 2880348एन अथ जेसी-470190एच), 05 जनवरी 2008/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार करमचोर (सं. 2883486ए अथ जेसी-470191एल), 31 दिसम्बर 2007/12 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जय सिंह (सं. 2884117पी अथ जेसी 470192एन), 29 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार जय भगवान (सं. 2884180के अथ जेसी-470193डब्ल्यू), 07 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सतेंद्र सिंह (सं. 2882182डब्ल्यू अथ जेसी 470194वाइ), 03 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार धीन राम (सं. 2881515वाइ अथ जेसी-470195एच), 01 जनवरी 2008*

हवलदार नरेश कुमार (सं. 2879946वाइ अथ जेसी-470196के), 03 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार पेवा सिंह (सं. 2883725के अथ जेसी 470197एम), 21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार बाबु लाल चौधरी (सं. 2882578ए अथ जेसी-470198पी), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार अमर पाल (सं. 2884113डब्ल्यू अथ जेसी 470199एचएम), 01 जनवरी 2008

हवलदार जयवीर सिंह राठ (सं. 2882122एफ अथ जेसी-470200एफ), 21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार हलीम अंसारी (सं. 2882724पी अथ जेसी-470201के), 21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार ईश्वर सिंह गहग (सं. 2883366एफ अथ जेसी 470202एम), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार सतधिर सिंह (सं. 2883409एल अथ जेसी-470203पी), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार छत्रपाल सिंह राठ (सं. 2883440एक्स अथ जेसी 470204एक्स), 01 जनवरी 2008

हवलदार ओम पाल (सं. 2884659वाइ अथ जेसी-470205ए), 01 जनवरी 2008

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 2886081ए अथ जेसी-470206एच), 02 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 2888188एन अथ जेसी-470207एल), 14 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार नाहर सिंह भावी (सं. 2885066वाइ अथ जेसी-470208एन), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार कुमार पाल (सं. 2887145एम अब जेसी-470209डब्ल्यू),
04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 2883493डब्ल्यू अब जेसी-470210एल),
01 जनवरी 2008

हवलदार वजीर सिंह (सं. 3990449ए अब जेसी-470211एन),
21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार किरान सिंह (सं. 3990307ए अब जेसी-470212डब्ल्यू),
21 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार रेशम खान (सं. 2884438एम अब जेसी-470213वाई),
01 जनवरी 2008

हवलदार देवी सिंह बेनिवाल (सं. 2884093डब्ल्यू अब जेसी-470214एफ), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 2883143के अब जेसी-470215के),
07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार तारा सिंह जादोन (सं. 2883240एफ अब जेसी-470216एम), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव राम (सं. 2881165के अब जेसी-470217पी),
01 जनवरी 2008

4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मिंग मार गुरुंग (सं. 5346967पी अब जेसी-612725के),
29 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 16 मई 2007)।

हवलदार लाल माने पुन (सं. 5345955एन अब जेसी-612726एम),
12 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007)।

हवलदार एक बहादुर गहो (सं. 5345967ए अब जेसी-612727पी),
01 नवम्बर 2007

हवलदार सिंह बहादुर गुरुंग (सं. 5346282डब्ल्यू अब जेसी-612728एक्स), 01 नवम्बर 2007

हवलदार तारा प्रसाद थापा (सं. 5346125के अब जेसी-612729ए),
01 नवम्बर 2007@

@(मूल ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 14 मार्च 2006)।

हवलदार खेम प्रसाद गुरुंग (सं. 5346116ए अब जेसी-612730पी), 05 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007)।

हवलदार बल बहादुर थापा (सं. 5346120एल अब जेसी-612731एक्स), 05 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007)।

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5345913एफ अब जेसी-612732ए), 16 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007)।

हवलदार धन सिंह घर्ती (सं. 5345943वाई अब जेसी-612733एच),
16 नवम्बर 2007@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007)।

हवलदार कर्ण प्रसाद गुरुंग (सं. 5346638वाई अब जेसी-612734एल), 01 नवम्बर 2007*

हवलदार (लिपिक) श्री कृष्णा राय (सं. 5345578ए अब जेसी-612735एन), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार भिम बहादुर गुरुंग (सं. 5346292ए अब जेसी-612736डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार भद्रा बहादुर थापा (सं. 5346126एम अब जेसी-612737वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार भोज बहादुर थापा मगर (सं. 5346127पी अब जेसी-612738एफ), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार पदम बहादुर आले (सं. 5346793ए अब जेसी-612739के),
01 दिसम्बर 2007

सिक्ख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुखबिन्दर सिंह (सं. 7430572एल अब जेसी-499901ए),
10 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3387577पी अब जेसी-499902एच),
15 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 अगस्त 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 3386116वाई अब जेसी-499903एल),
22 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 3387038वाई अब जेसी-499904एल),
22 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह (सं. 3386897एक्स अब जेसी-499905एडब्ल्यू),
26 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मुञ्जा सिंह (सं. 3386981एक्स अब जेसी-499906आई),
26 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रणजोत सिंह सेना मंडल (सं. 3382637पी अब
जेसी-499907एफ), 26 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार हरिन्दर सिंह (सं. 3386662एल अब जेसी-499908के),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार अमरजोत सिंह (सं. 3389059एन अब जेसी-499909एम),
01 दिसम्बर 2007

दि राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक राम चरण (सं. 2984456के अब जेसी-
480086एच), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार लिपिक कुलदीप सिंह (सं. 2984752पी अब जेसी-
480087एल), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार लिपिक कर्तिका लाल विश्वास (सं. 2984821ए अब
जेसी-480088एन), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार लिपिक विनोद कुमार मुहारू (सं. 2985339एल अब
जेसी-480089डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार लिपिक बर्मीर मुल्ला (सं. 2985394एफ अब जेसी-
480090एल), 01 नवम्बर 2007

हवलदार लिपिक प्रदीप कुमार (सं. 2985396एम अब जेसी-
480091एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार लिपिक लज्जत नारायण साह (सं. 2985402पी अब
जेसी-480092डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

हवलदार लिपिक निरमल कुमार (सं. 2985403एक्स अब जेसी-
480093वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार लिपिक यिसन सिंह जाला (सं. 2985423एल अब जेसी-
480094एफ), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अजय पाल सिंह (सं. 7430621एन अब जेसी-480095के),
01 अक्टूबर 2007

हवलदार वीरेन्द्र कुमार (सं. 2985443वाई अब जेसी-480096एम)
01 अक्टूबर 2007

हवलदार सुरेन्द्र सिंह चौहान (सं. 2987187एन अब जेसी-
480097पी), 07 अक्टूबर 2007

हवलदार मंगल चक्रवर्ती (सं. 2985610के अब जेसी-480098एक्स),
01 नवम्बर 2007

हवलदार दया राम (सं. 2984737ए अब जेसी-480099ए),
30 नवम्बर 2007

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 2988458एन अब
जेसी-480100के), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार बाबू सिंह (सं. 2984571के अब जेसी-480101एम),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 2985683डब्ल्यू अब जेसी-480102पी),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार चत्तर सिंह गुर्जा (सं. 2989187एम अब जेसी-480103एन),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार दलीप कुमार (सं. 2985529एक्स अब जेसी-480104ए),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार राम जाम्ना सिंह (सं. 2985871एक्स अब जेसी-
480105एच), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार कालीदीन सिंह (सं. 2984930आई अब जेसी-480106एल),
01 दिसम्बर 2007

जम्मु कश्मीर राईफल

नायब सूबेदार (जोड़ों) के रैंक में

हवलदार रेशम सिंह (सं. 1375189पी अब जेसी-580595डब्ल्यू),
19 नवम्बर 2007*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार कुशल सिंह (सं. 13752794एक्स अब जेसी-580596वाई),
06 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राज कुमार (सं. 13752993एल अब जेसी-580597एफ),
11 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 13748852वाई अब जेसी-580598के),
19 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रवि कुमार (सं. 13749511ए अब जेसी-580599एम),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार शाम लाल (सं. 13751927डब्ल्यू अब जेसी-
580600डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार रश पाल (सं. 13750510के अब जेसी-580601वाई),
01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार मिलाप चन्द (सं. 13750523एफ अब जेसी-580602एफ),
08 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सज्जन सिंह (सं. 13751913डब्ल्यू अब जेसी-580603के),
13 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार सुधीर सिंह (सं. 13751987एल अब जेसी-580604एम),
15 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार मिलाप चन्द (सं. 13750204पी अब जेसी-580605पी),
06 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार बलविन्द सिंह (सं. 13752138डब्ल्यू अब जेसी-
580606एक्स), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार भूप राम (सं. 13752229ए अब जेसी-580607ए),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार भगत राम बंसल (सं. 13752232ए अब जेसी-
580608एच), 15 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार लाल सिंह (सं. 13750738ए अब जेसी-580609एल),
07 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 13750725एच अब जेसी-580610ए),
07 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13748230एक्स अब जेसी-580611एच),
07 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 13748655डब्ल्यू अब जेसी-580612एल),
07 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार शेर बहादुर (सं. 13750061ए अब जेसी-580613एन),
01 जनवरी 2008

हवलदार करनैल सिंह (सं. 13751826एच अब जेसी-
580614डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार बाबु राम थापा (सं. 13750039पी अब जेसी-580615वाई),
01 जनवरी 2008

हवलदार सुशील कुमार थापा (सं. 13750297पी अब जेसी-
580616एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार गणेश बहादुर मल (सं. 13750584वाई अब जेसी-
580617के), 01 जनवरी 2008

हवलदार प्रेम लाल (सं. 13749744एफ अब जेसी-580618एम),
01 जनवरी 2008

हवलदार शादी लाल (सं. 13749872वाई अब जेसी-580619पी),
01 जनवरी 2008

हवलदार अरुण कुमार (सं. 13749875एम अब जेसी-580620के),
01 जनवरी 2008

हवलदार कुमार थापा (सं. 13750620वाई अब जेसी-580621एम),
01 जनवरी 2008

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13751937ए अथ जेसी-580622पी),
03 जनवरी 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)।

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 13751980एफ अथ जेसी-580623एक्स), 01 जनवरी 2008

गङ्गदाल राईफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4065736वाई अथ जेसी-530269एल),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार हर्षपाल सिंह (सं. 4069952के अथ जेसी-530270ए),
12 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 4064340एच अथ जेसी-530271एच),
26 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार दिनेश सिंह रावत (सं. 4076484एक्स अथ जेसी-530272एल), 14 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार उमेश सिंह (सं. 4066795एक्स अथ जेसी-530273एन),
18 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार दलवीर सिंह (सं. 4066764एक्स अथ जेसी-530277के),
04 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार भारत सिंह रामोला (सं. 4066743एफ अथ जेसी-530278एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 4066228पी अथ जेसी-530279पी),
13 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार हरि कृष्ण (सं. 4067744डब्ल्यू अथ जेसी-530280के),
01 नवम्बर 2007

हवलदार गबर सिंह (सं. 4065936पी अथ जेसी-530281पी),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4068368ए अथ जेसी-530282पी),
06 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार जमन सिंह नर्गी (सं. 4068204के अथ जेसी-530283एक्स), 01 नवम्बर 2007

हवलदार भगवती प्रसाद (सं. 4066137एल अथ जेसी-530284ए),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार भजन सिंह (सं. 4066239एफ अथ जेसी-530285एच),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार योगेश्वर सिंह नेगी (सं. 4072819एम अथ जेसी-530286एल), 14 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार करन सिंह (सं. 4066756वाई अथ जेसी-530287एन),
24 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार हुकम सिंह (सं. 4066618एक्स अथ जेसी-530288डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2007 *

हवलदार बचन सिंह रावत (सं. 4068016एच अथ जेसी-530289वाई),
19 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार रघुवीर सिंह रावत (सं. 4069384के अथ जेसी-530290एन), 19 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार धीरेन्द्र सिंह (सं. 4065769के अथ जेसी-530291डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2007

हवलदार खीम सिंह (सं. 4067791एन अथ जेसी-530292वाई),
13 दिसम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) नरेन्द्र सिंह (सं. 4068617एन अब जेसी-530274डब्ल्यू), 28 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जाती है)।

हवलदार (लिपिक) स्वामी नाथ यादव (सं. 4067391एफ अब जेसी-530275वाई), 01 नवम्बर 2007

हवलदार (लिपिक) जयपोल कॉडिल (सं. 4065947एफ अब जेसी-530276एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) के रैंक में

हवलदार (म्यूजिशियन) विरिन्द्र कुमार (सं. 4067075एच अब जेसी-530268एच), 02 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2007 से दी जाती है)।

कुमांक रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश राय (सं. 4178671के अब जेसी-540270ए), 15 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार सीता राम यादव (सं. 4181366एच अब जेसी-540265पी), 06 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 4181378एक्स अब जेसी-540266एक्स), 06 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार हरी किशन (सं. 4181472एफ अब जेसी-540267ए), 06 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार कैलाश चन्द (सं. 4178551एल अब जेसी-540271एच), 23 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार गिरीश चन्द्र जोशी (सं. 4178724एक्स अब जेसी-540272एल), 24 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार चंचल सिंह (सं. 4178800वाई अब जेसी-540273एन), 24 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 3177802एफ अब जेसी-540269एल), 14 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार जौत सिंह (सं. 4183075एफ अब जेसी-540268एच), 11 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार बची राम (सं. 4179163ए अब जेसी-540281एम), 18 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार भगवत सिंह (सं. 4179323पी अब जेसी-540282पी), 18 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार श्याम सिंह विष्ट (सं. 4179347वाई अब जेसी-540284ए), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार कल्याण सिंह (सं. 4179787एम अब जेसी-540285एच), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार शिव सिंह (सं. 4180943एक्स अब जेसी-540290एन), 17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार हीरा सिंह रावत (सं. 14701754के अब जेसी-540283एक्स), 30 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार राजेश यादव (सं. 7430546के अब जेसी-540286एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार मोश चन्द्र दुर्गापाल (सं. 4181146वाई अब जेसी-540287एन), 02 दिसम्बर 2007/01 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 सितम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4181177वाई अब जेसी-540288डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार मदन सिंह बिष्ट (सं. 4181194वाई अथ जेसी-540289वाई),
02 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार जय भगवान (सं. 4181596डब्ल्यू अथ जेसी-540274डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 4181642ए अथ जेसी-540275वाई),
31 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार पून सिंह (सं. 4181660एच अथ जेसी-540276एफ),
30 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार हरीश चन्द्र सिंह रावत (सं. 4178611पी अथ जेसी-540277के),
11 नवम्बर 2007/20 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 20 अक्टूबर 2007 से दी गई है)।

हवलदार रमेश चन्द्र सिंह (सं. 4178664एन अथ जेसी-540278एम),
11 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार सत्यवीर (सं. 4181525पी अथ जेसी-540279पी),
17 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

हवलदार दूर्गा सिंह (सं. 4178025एम अथ जेसी-540280के),
17 नवम्बर 2007/10 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 10 नवम्बर 2007 से दी गई है)।

नागा रेजिमेन्ट

हवलदार अवतार सिंह (सं. 41701985ए अथ जेसी-590208के),
01 दिसम्बर 2007

एस. अश्वफ

अथ सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)

सं. 484, दिनांक 12 सितम्बर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

एक्टिंग कर्पोरेटर से स्थायी कर्पोरेटर

नाम सं. तथा रैंक एवं श्रेयो रैंक देने की तारीख

40512 कर्पोरेटर एन वनजी, इंजीनियर, 01 फरवरी 2004

रणवीर सिंह

ऑतिरिक्त निदेशक (कार्यिक)

MINISTRY OF DEFENCE
(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 27th September 2008

No. 480, dated 11th September 2008—The President is pleased to appoint Shri Ravinder Monga, CSS, as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from forenoon of 19th June, 2008 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri S. P. Singh Teonia, AFA in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 07.07.2008 (FN) until further orders.

RAMESH KUMAR
Director (E)

ARMY BRANCH

No. 481, dated 11th September 2008—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

Captain to be Major

DR-10589H Deepak Kalia, 21.2.2008

D. K. TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS
(MECHANICAL TRANSPORT/SUPPLY)

No. 482, dated 11th September 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Subedar Major (PA)

Subedar T Panchanatham (JC-641648H), 01 Apr 2008

To be Subedar Major [Clk(GD/SD)]

Subedar Niranjana Dash (JC-641001P), 01 May 2008

To be Subedar Major [Clk(GD)]

Subedar G Soundaram (JC-640221M), 03 Mar 2008

Subedar M Parimani (JC-640659H), 03 Mar 2008

Subedar Mangal Singh Rawat (JC-640727L), 02 May 2008

To be Subedar Major (SKT)

Subedar Krishna Kumar Rawat (JC-640412F), 31 Mar 2008

Subedar Surya Nath Ram (JC-215516K), 01 Apr 2008

Subedar Sundaran A (JC-217862Y), 01 Apr 2008

Subedar Sant Ram (JC-640382P), 01 May 2008

Subedar Chandrika Prasad (JC-640410W), 01 May 2008

Subedar Norden Sherpa (JC-640452H), 17 May 2008

To be Subedar Major (MT)

Subedar Sudama Prasad (JC-662193L), 01 Apr 2008

Subedar Shankar Dayal Ram (JC-662171M), 04 Apr 2008

Subedar Rama Shankar Tiwari (JC-662195W), 01 May 2008

Subedar Mahanvir (JC-662194N), 01 May 2008

Subedar Ram Jiwan (JC-662196Y), 01 May 2008

Subedar Gajendra Pal Singh Sisodia (JC-662197F), 01 May 2008

To be Subedar (MT)

Naib Subedar Chandra Prakesh Pandey (JC-662902P), 10 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rajesh Kumar Shukla (JC-662947P), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Umesh Bora (JC-662952A), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Avdesh Narayan Pathak (JC-662968L), 23 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Nani Gopal Kar (JC-662974Y), 06 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Tamada Babu Rao (JC-663130P), 16 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Chandra Charan Kakti (JC-663153W), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Mahipal Singh (JC-663178H), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Nripen Kumar Hira (JC-663181H), 12 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Baria Ranjit Singh Sur Singh (JC-663236F), 12 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sultan Singh Yadav (JC-663244A), 18 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Mon Lal (JC-663338X), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances)

Naib Subedar Raja K M (JC-663341A), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Lal Bahadur Sharma (JC-663342A), 13 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shri Bhagwan Pandit (JC-663344F), 17 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Shukul Bhagat (JC-663358I), 17 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Murti Singh (JC-663430W), 17 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances)

Naib Subedar Dustrath P D Yadav (JC-663431Y), 11 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Prem Singh (JC-663432F), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Krishna Pal (JC-663435P), 10 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Chetan Singh (JC-663441H), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Raj Kishore Singh (JC-663472H), 15 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramadhar Prasad (JC-663480F), 16 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar S N Singh (JC-664111W), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

To be Subedar (RT)

Naib Subedar Ramaker Tiwari (JC-661067M), 27 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Dhanajaya Kumar (JC-660994N), 13 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shiv Nath Mishra (JC-660988A), 20 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Vimal Chandra Shukla (JC-660990X), 18 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

To be Subedar (MT)

Naib Subedar G C Baruah (JC-662901M), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar V K P N Tiwari (JC-663760P), 31 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar J K Rai (JC-663761X), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar S N Singh (JC-664111W), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Membar Khan (JC-662896M), 09 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Vijay Bahadur (JC-662949A), 23 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Maya Ram Rathore (JC-663221Y), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Avtar Singh (JC-662956W), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ashutosh Ganguly (JC-663105W), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Brijpal Singh (JC-662959K), 31 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar C M Prakash Ray (JC-662962K), 09 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Amar Bahadur Singh (JC-663144P), 19 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Kalandi Charan Das (JC-662981P), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sushil Kumar (JC-663120L), 03 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Virender Kumar (JC-663127P), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Uday Narayan Goswami (JC-663132A), 05 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Prasanna Kumar G (JC-663278N), 13 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Satish Kumar (JC-663229L), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Puran Lal (JC-663230A), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sarata Kumar Biswal (JC-663165L), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Suresh Babu C H (JC-663177A), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramesh Chander (JC-663239P), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramesh Kumar Shukla (JC-662947P), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Satnam Singh (JC-662894F), 01 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramadhar Das (JC-662900K), 26 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Madan Choubey (JC-662895K), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Jagroop Singh (JC-663337P), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar R C S Chauhan (JC-662899A), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Karakar Manasukh P (JC-662887L), 14 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Anun Kumar Awasthi (JC-662893Y), 16 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Dawan (JC-663762A), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Surya Prasad Sukal (JC-663163A), 24 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sudama Pandey (JC-662752K), 01 Feb 2007*

Naib Subedar Mohinder Singh (JC-662833K), 02 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Man Singh (JC-662757H), 14 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Paltan Singh (JC-662877F), 01 May 2007*

Naib Subedar Harpal Singh (JC-662777W), 29 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Lav Kush Tiwari (JC-662832I), 22 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sri Tehshildar (JC-662842I), 26 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Prafulla Chandra Pradhan (JC-662767M), 24 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Vijay Bahadur (JC-662776M), 01 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Pankaj Kumar Chakraborti (JC-662797K), 26 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shaji Kumar KB (JC-662939W), 01 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Tej Narayan Singh (JC-662818P), 26 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Asan Ali SK (JC-663167W), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Dange V Jagannath (JC-662807H), 01 May 2007*

Naib Subedar Rajeshwar Sharma (JC-662903X), 01 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Umesh Boruh (JC-662952A), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Tara Chand (JC-662905H), 01 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Vinod Kumar Dodiya (JC-663104I), 02 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Koyanageswar Rao (JC-663143M), 08 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rani Pal Singh (JC-663282W), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Narayan Singh (JC-662958F), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Harinder Singh (JC-663166N), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Nirmal Kumar Rai (JC-662963M), 08 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Prema Rajan CC (JC-662964P), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramdev (JC-663106Y), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Meghnad Saha (JC-662965X), 21 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Khiali Ram (JC-663169F), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Bhadra Pandey (JC-662969N), 21 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Surendra Singh Yadav (JC-662966A), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Lalman (JC-662967H), 31 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Mohan Lal Sharma (JC-663107F), 11 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rukum Pal Singh (JC-663108K), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sanat Kumar Sasmal (JC-663333Y), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Dharmender (JC-663280L), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Naresh Kumar (JC-662980M), 11 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sobaran Singh (JC-663110F), 13 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar C M Prakash (JC-663111K), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Sabad (JC-663112M), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shiv Shankar Sah (JC-663116H), 02 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Satish Kumar (JC-663117L), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Govind Singh (JC-663118N), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Lalit Mohan Biswal (JC-663171Y), 22 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sube Singh (JC-663121N), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramesh Kumar Jha (JC-662982X), 09 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Niwas Singh (JC-663122W), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shiv Kumar Singh (JC-663123Y), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Joginder Pal (JC-663124F), 03 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Kameshwar Singh (JC-663109M), 06 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Jagdish Prasad (JC-663150H), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ram Niwas Yadav (JC-663161P), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Mahender Chaudhary (JC-663133H), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shyama Kanta Agasti (JC-663156K), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Maharaj Singh (JC-663157M), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Surendra Singh (JC-663228H), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Muktinath Singh (JC-663153X), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Avadh Kishore (JC-663279W), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Durg Singh (JC-663159X), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Gireesh VV (JC-663234W), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

To be Naib Subedar (RT)

Naib Subedar Ajit Kumar Pandey (JC-662603W), 01 Nov 2003

Naib Subedar Dilip Kumar Mishra (JC-662604Y), 01 Nov 2003

Naib Subedar Rakesh Prasad Mishra (JC-662605Y), 01 Nov 2003

Naib Subedar Rameshwar Pathak (JC-663450K), 10 Dec 2005

Naib Subedar Devendra Kumar Swami (JC-663451M), 10 Dec 2005

Naib Subedar Rajesh Kumar (JC-663470X), 10 Dec 2005

Naib Subedar Sarvesh Nath Tiwari (JC-663471A), 10 Dec 2005

Naib Subedar Rajesh Puri Goswami (JC-664071Y), 20 May 2006

Naib Subedar Deepak Kumar Shukla (JC-664233A), 16 Dec 2006

Naib Subedar Prabhakar Pandey (JC-664234H), 16 Dec 2006

To be Naib Subedar (MT)

Hav Manu Ram Bishnoi (No. 13888816L now JC-664073L), 12 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Samam Singh (No. 3382811W now JC-664015K), 09 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Md Miraj Sardar (No. 13887001X now JC-664624L), 09 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shiv Lal Baroodia (No. 13887399X now JC-664508H), 01 Jul 2007

Hav Narendra Kumar (No. 13887466X now JC-664594Y), 01 Aug 2007

Hav Brij Bihari Singh (No. 13887544K now JC-664661Y), 01 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Singh (No. 13887946F now JC-664477N),
01 Jul 2007

Hav Ramesh Chander (No. 13887960N now JC-664457A), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Vijay Kumar (No. 13889227F now JC-664589N),
20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Rup Chand (No. 13889298H now JC-664655L),
01 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Dalbir Singh (No. 13889480H now JC-664590H),
04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Byamokesh Pradhan (No. 13889663X now JC-664622A), 14 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Murlidhar Sahoo (No. 13890101N now JC-664541A), 27 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Gunendra Nath (No. 13890109A now JC-664476L),
16 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Wakeel Kumar Singh (No. 13890215Y now JC-66434N), 01 Jun 2007

Hav Amir Chand Singh (No. 13890324L now JC-664612W), 30 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Kumar (No. 13890668K now JC-664461H),
02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Girja Shankar Sharma (No. 13890836X now JC-664620P), 13 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Hari Ram (No. 13890868A now JC-664449F),
01 Jul 2007

Hav Sudhisht Yadav (No. 13890875W now JC-664626W), 14 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shiv Bhajan (No. 13890923L now JC-664634P),
27 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Karam Bir Singh (No. 13891128X now JC-664462L), 01 Jul 2007

Hav Shiv Shankar Shah Gupta (No. 13891386X now JC-664470K), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ganesh Chaudhary (No. 13891404P now JC-664591L), 07 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Chhedhari Rai (No. 13891489W now JC-664592N),
03 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Maharaj Singh (No. 13891575F now JC-664616M),
11 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Tarlok Prasad (No. 13891691K now JC-664636A),
15 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shalindra Singh (No. 13891806M now JC-664618X),
14 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Nar Singh Narayan Dubey (No. 1389187M now JC-664475H), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Devanand Namdeo Rao (No. 13891839X now JC-664621X), 17 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Bhopal Singh Bist (No. 13891912I, now JC-664623II), 20 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Krushna Chandra Sahu (No. 13894282F, now JC-664635Y), 10 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav G Sampath (No. 13894362E, now JC-664639N), 13 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Radha Balay (No. 13894471I, now JC-664454M), 01 Jul 2007

Hav Bhojanath Maurya (No. 13894597L, now JC-664638I), 14 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Mukeshwar Mahato (No. 13894647L, now JC-664545W), 10 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ravindra Nath Chauhan (No. 13894655K, now JC-664637H), 27 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Lila Ram Yadav (No. 13894659A, now JC-664627Y), 18 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Md Afsar Ali Sardar (No. 13894753K, now JC-664595F), 04 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Binod Bihari Sethi (No. 13894860L, now JC-664540X), 10 Jul 2007

Hav Mohan Swamy (No. 13895042W, now JC-664629K), 24 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Pravin Padhak (No. 13895088Y, now JC-664633M), 14 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Numba Ram Dheru (No. 13895112K, now JC-664630Y), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Kailash Kumar (No. 13895145P, now JC-664593W), 01 Aug 2007

Hav Ram Dulare (No. 13895343A, now JC-664625N), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Bishan Singh (No. 13895419P, now JC-664610L), 13 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shaik Peer Ahmad (No. 13895546K, now JC-664469P), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Bandi Shrinwasa Reddy (No. 13895991H, now JC-664474A), 11 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Murti Singh Yadav (No. 13897189L, now JC-664472P), 01 Jul 2007

Hav Tarkeshwar Pandey (No. 13897289W, now JC-664631F), 10 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Subrata Dutta (No. 13897513X, now JC-664507A), 03 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Shrirang Vitthal Ghode (No. 13897587M, now JC-664632K), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Prabal Pratap Singh (No. 13897615N, now JC-664544N), 05 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Jaipal Singh (No. 13897648Y, now JC-664448Y), 03 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Akhiwate Subhash Pandit (No. 13897731W now JC-664538A), 10 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Hav Suresh Chandra (No. 13897871H now JC-664642N), 16 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

To be Subedar SKT

Naib Subedar Ven Singh Rawat (JC-642443A), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Satpal Singh (JC-642357P), 20 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 05 Dec 2006 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Angrej Singh (JC-642477N), 09 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Chavan Dagadu Bapu (JC-642480N), 01 Jul 2007

Naib Subedar Arjun Lal (JC-642568X), 29 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Kuldeep Singh (JC-642585X), 01 Jul 2007

Naib Subedar Chandrika Ojha (JC-642569A), 01 Aug 2007

Naib Subedar U Velu Chamy (JC-642571X), 01 Aug 2007

Naib Subedar Shinde Shivaji Sant Ram (JC-642572A), 01 Aug 2007

Naib Subedar Ram Niwas (JC-642573H), 01 Aug 2007

Naib Subedar Siba Narayan Das (JC-642574L), 01 Aug 2007

Naib Subedar Rohitash (JC-642575N), 01 Aug 2007

Naib Subedar Akhil Chandra Mandal (JC-642570P), 24 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rakesh Kumar Pachouri (JC-642444H), 28 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ratnesh Kumar Singh (JC-642578F), 01 Sep 2007

Naib Subedar Jai Prakash (JC-642589N), 01 Sep 2007

Naib Subedar Mohanan K (JC-642591L), 01 Sep 2007

Naib Subedar S K Badruddoza (JC-642595F), 01 Sep 2007

Naib Subedar Gopal Kumar Singh Roy (JC-642598P), 01 Sep 2007

Naib Subedar Sandugade Ramdas Ganu (JC-642599X), 01 Sep 2007

Naib Subedar Vinod Kumar (JC-641762A), 03 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

To be Subedar Ck (GD/SD)

Naib Subedar Roshan Lal (JC-642717A), 15 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Asharphi Lal (JC-643169A), 12 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Bidhan Chandra Biswas (JC-643171X), 01 Feb 2008

Naib Subedar Asha Ram (JC-643174L), 01 Feb 2008

Naib Subedar Ranjit Sarkar (JC-643146Y), 01 Jan 2008

Naib Subedar Philip KG (JC-643127N), 01 Jan 2008

Naib Subedar Lalji Ram (JC-643128W), 01 Jan 2008

Naib Subedar Ramesh Chand Rana (JC-643129Y), 28 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rohitashw Kumar Yadav (JC-643168W), 18 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rambir Singh (JC-643173H), 21 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Oommen PT (JC-643241L), 01 Feb 2008

Naib Subedar Hardip Singh (JC-643239N), 01 Feb 2008

Naib Subedar Mathew PP (JC-643123X), 07 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Sunil Kumar (JC-643125H), 01 Jan 2008

Naib Subedar Parvat Kumar Kar (JC-643124A), 01 Jan 2008

Naib Subedar Brundavan Mohapatra (JC-643126L), 01 Jan 2008

Naib Subedar Ram Kishor Mishra (JC-643170P), 25 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

To be Subedar : Personal Assistant

Naib Subedar Uday Bhan (JC-662923L), 01 Feb 2008

Naib Subedar Shamsher Singh (JC-662924N), 01 Feb 2008

Naib Subedar Rajpati Mishra (JC-663034A), 01 Feb 2008

Naib Subedar Venugopalan K.K. (JC-643232K), 19 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Devinder Singh (JC-643231F), 01 Jan 2008

Naib Subedar Praveen Singh Mehta (JC-643234P), 21 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Bhoopalan D (JC-643233M), 21 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Angad Prasad Gupta (JC-662922H), 15 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

To be Subedar Clk (GD/SD)

Naib Subedar Tarakeshwar Singh (JC-642542H), 17 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 20 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Pankajakshan K P (JC-642837Y), 01 Sep 2007

Naib Subedar Dresh Raj Singh Pundir (JC-642838P), 01 Sep 2007

Naib Subedar S N Ram (JC-642847H), 28 Aug 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Nashib Singh (JC-642853W), 01 Sep 2007

Naib Subedar Sambhu Dayal Pandey (JC-642946L), 01 Sep 2007

Naib Subedar Ishwar Dutt Sharma (JC-642990P), 01 Sep 2007

Naib Subedar Manick Lal Sharma (JC-643003Y), 01 Sep 2007

Naib Subedar Madhusudan Mohanty (JC-643015N), 01 Sep 2007

Naib Subedar Durgar Singh (JC-643016W), 01 Sep 2007

Naib Subedar Amar Singh (JC-643053K), 01 Sep 2007

Naib Subedar Raju TS (JC-643054M), 01 Sep 2007

Naib Subedar Y L Narayana (JC-643062L), 01 Sep 2007

Naib Subedar Krishna Mohan Shukla (JC-643063N), 01 Sep 2007

Naib Subedar Dora Lal (JC-643106X), 01 Sep 2007

Naib Subedar AK Pandey (JC-642409A), 22 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ashok Kumar (JC-642831X), 21 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rama Shankar Rai (JC-642873K), 23 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Baldeo Pandit (JC-642947N), 18 Sep 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances)

Naib Subedar Bholu Ram (JC-643017Y), 01 Oct 2007

Naib Subedar Arjun Singh (JC-643018F), 01 Oct 2007

Naib Subedar Nandan Singh Myal (JC-643019K), 01 Oct 2007

Naib Subedar Shantu Singh (JC-643020Y), 01 Oct 2007

Naib Subedar Joy Chacko (JC-643066F), 01 Oct 2007

Naib Subedar Naryan Sah (JC-642713K), 01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Birnay Krishna Prajapati (JC-643107A), 01 Nov 2007

Naib Subedar Ranbir Singh (JC-643065Y), 01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ramalinga Prasad G (JC-662867X), 01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Kuldeep Singh (JC-643109L), 01 Dec 2007

Naib Subedar Gokula Nanda Chanda (JC-642727K), 19 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 26 Jun 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Nathi Lal (JC-643113N), 01 Dec 2007

Naib Subedar Daya Krishana Bhatt (JC-643112L), 01 Dec 2007

Naib Subedar Rajendra Singh (JC-643111H), 01 Dec 2007

Naib Subedar Raj Kumar Singh (JC-643110A), 01 Dec 2007

Naib Subedar Room Singh (JC-643114W), 01 Dec 2007

Naib Subedar Radheshyam Deorani (JC-643115Y), 01 Dec 2007

Naib Subedar Paramat Muni V.N. Prasad (JC-643116F), 01 Dec 2007

Naib Subedar Harbaksh Singh (JC-643117K), 01 Dec 2007

Naib Subedar Dineshan Chevidiyan (JC-643119P), 01 Dec 2007

Naib Subedar Ramesan P (JC-643118M), 01 Dec 2007

Naib Subedar Shree Kumar NC (JC-643172A), 01 Dec 2007

Naib Subedar Rajendra Prasad Yadav (JC-643122P), 01 Dec 2007

Naib Subedar Ganesh Kumar R (JC-643236A), 01 Dec 2007

To be Subedar Personal Assistant

Naib Subedar Dal Bahadur Pal (JC-643158N), 01 Sep 2007

Naib Subedar Anil Kumar Sinha (JC-643159W), 01 Sep 2007

Naib Subedar Babu Lal Chaudhary (JC-643160L), 01 Sep 2007

Naib Subedar Promod Kumar (JC-643161N), 01 Oct 2007

Naib Subedar Narayanan S (JC-643162W), 01 Oct 2007

Naib Subedar Pramod Narain Singh (JC-643166M), 01 Oct 2007

Naib Subedar Vineetha Chandran (JC-663973H), 01 Oct 2007

Naib Subedar Lakshuman Prasad (JC-643229K), 01 Nov 2007

Naib Subedar Baldev Singh (JC-643163Y), 01 Nov 2007

Naib Subedar Mangal Singh Rana (JC-643179K), 01 Dec 2007

Naib Subedar Bhagwan Singh (JC-643164F), 05 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Jitendra Kumar Jha (JC-643177Y), 01 Dec 2007

Naib Subedar Mahak Singh Malik (JC-643178F), 01 Dec 2007

Naib Subedar Subhas Chander (JC-643230Y), 01 Dec 2007

To be Subedar Catering

Naib Subedar Chandra Bhan Yadav (JC-680392F), 17 Nov 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2006 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Shambhu Prasad Yadav (JC-680393K), 01 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Gurja Shanker (JC-680394M), 17 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Prabhu Nath Singh (JC-680395P), 31 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Balla Eswara Rao (JC-680441Y), 05 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Ponamveeti Biju (JC-680442F), 01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Rash Bihari Tripathi (JC-680456Y), 10 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

Naib Subedar Kapase Ashok Shivappa (JC-680459P), 16 Feb 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub Catering

Nb Sub Bharat Singh (JC-663606W), 22 May 2006

Nb Sub Anni Sharma (JC-663607Y), 22 May 2006

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-663608F), 22 May 2006

Nb Sub Ajay Kumar Jakhar (JC-663609K), 22 May 2006

Nb Sub Gardeep Singh (JC-663610Y), 22 May 2006

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-663611F), 22 May 2006

Nb Sub Manjul Bhan (JC-663612K), 03 Jul 2006

Nb Sub Ashish Kumar (JC-663613M), 22 May 2006

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Deo Raj Maurya (C-266940P), 28 Apr 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Om Prakash (JC-266709M), 28 Apr 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Kulbir Singh (JC-269110K), 25 Feb 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Devi Singh (JC-266675M), 25 Feb 2008/01 Jan 2008*

Nb Sub Prusotam Mishra (JC-268642X), 05 Mar 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Daharonde Danauaya (JC-268006K), 01 Feb 2008

Nb Sub P Sekar Mandare (JC-268468W), 16 Feb 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Karj Singh (JC-268658H), 22 Feb 2008/01 Feb 2008*

Nb Sub Rajendra Ram Lal Jaiswal (JC-266879W), 01 Mar 2008

Nb Sub Sandeep Sharma (JC-267593N), 01 Mar 2008

Nb Sub Indal Sha (JC-267681K), 12 Mar 2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Rakesh Singh (JC-267806W), 29 Mar 2008/01 Mar 2008*

Nb Sub Arvindakshan Pillai CK (JC-268477X), 01 Mar 2008

Nb Sub Harjit Singh (JC-268001L), 10 Apr 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Hukum Chand (JC-267800P), 25 Apr 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Vijay Narayan Ram (JC-267527L), 16 May 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub Dharam Lal Singh (JC-267437K), 28 Jun 2008/01 Apr 2008*

Nb Sub B Chinna Narasimhulu (JC-269040W), 07 May 2008/28 Apr 2008*

Nb Sub Mane Muradidhar Bhanu Das (JC-267836N), 17 May 2008/01 May 2008*

Nb Sub Ganaveedu R (JC-267704A), 01 May 2008

*(Gtd seniority wef)

P. RAMA SASTRY

Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 483, dated, 12th September 2008.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE SIKH LI

To be Nb Subedar (GD)

Hav Gurmeet Singh (No. 4471559N now JC-509574W), 09 Jun 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 21 Apr 2007)

Hav Labh Singh (No. 4464677Y now JC-509575Y), 14 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 25 Aug 2007).

Hav Sukhvir Singh (No. 4469059X now JC-509576F), 28 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Aug 2007)

Hav Karnail Singh (No. 4467504M now JC-509577K), 10 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 11 Sep 2007).

Hav Jasbir Singh (No. 4464459A now JC-509578M), 14 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 Sep 2007).

Hav Jagjit Singh (No. 4465149F now JC-509579P),
14 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 15 Oct 2007).

Hav Gurbax Singh (No. 4470087W now JC-509580K),
16 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 04 Nov 2007).

Hav Hav Yodhvir Singh (No. 4468266X now JC-
509581M), 13 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Dec 2007).

Hav Baljit Singh (No. 4465585Y now JC-509583X), 16
Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jan 2008).

Hav Balwinder Singh (No. 4467674W now JC-509584A),
20 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jan 2008).

Hav Jasvir Singh (No. 4468481H now JC-509585H), 14
Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jan 2008).

Hav Baljinder Singh (No. 4467076Y now JC-509586L),
28 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 17 Jan 2008).

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Jagdish Singh Mehta (No. 4467184H now JC-
509582P), 05 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk (GD) with
effect from 01 Jan 2008).

To be Nb Sub (GD)

Hav Ranjit Singh (No. 4465935A now JC-509557W), 01
Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 27 May 2007).

Hav Gurbax Singh (No. 4465499N now JC-509558Y),
02 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2007).

Hav Ram Singh (No. 4469391N now JC-509559F), 14
Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 03 Aug 2007).

Hav Bhupinder Singh (No. 4469557K now JC-509560W),
05 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 30 Aug 2007).

Hav Kishori Singh (No. 4465194N now JC-509561Y),
23 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2007).

Hav Harbans Singh (No. 4466964F now JC-509562F),
01 Sep 2007*

Hav Nachhatar Singh (No. 44665232Y now JC-
509563K), 05 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2007).

Hav Jaswinder Singh (No. 4466364Y now JC-509564M),
28 Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2007).

Hav Baldev Singh (No. 4469977K now JC-509565P),
17 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 18 Oct 2007).

Hav Jagtar Singh (No. 4467386K now JC-509566X), 11
Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Nov 2007).

Hav Varinderpal Singh (No. 4469442W now JC-
509567A), 05 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Nov 2007).

Hav Gurmail Singh (No. 4465894F now JC-509568H),
22 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 23 Nov 2007).

Hav Narinder Singh (No. 4466283Y now JC-509569L),
22 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 23 Nov 2007).

Hav Baljit Singh (No. 4464527H now JC-509571H), 21
Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Dec 2007).

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Jarnail Singh (No. 4464373F now JC-
509570A), 01 Dec 2007).

Hav (Clk) Ashok Kumar Yadav (No. 4464875K now JC-
509572L), 01 Jan 2008

Hav (Cltk) Raghubir Singh (15354304W now JC-509573N),
01 Jan 2008.

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Angrej Singh (No. 4467506X now JC-5095401I),
15 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 May 2007).

Hav Gulab Singh (No. 4466244A now JC-509541I),
20 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 21 May 2007).

Hav Karnail Singh (No. 4465039M now JC-509542N),
10 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 24 May 2007)

Hav Onkar Singh (No. 4468248P now JC-509543W),
01 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 27 May 2007).

Hav Satwant Singh (No. 4467019X now JC-509544Y),
20 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2007).

Hav Jagjit Singh (No. 4465941N now JC-509545I),
20 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Jun 2007).

Hav Gurmair Singh (No. 4465798M now JC-509546K),
13 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2007).

Hav Tarsem Singh (No. 4469755P now JC-509547M),
18 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 05 Jul 2007).

Hav Lakhvir Singh (No. 4468571K now JC-509548P),
21 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Aug 2007).

Hav Tarsem Singh (No. 4467523X now JC-509549X),
17 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Aug 2007)

Hav Tarsem Singh (No. 4465934X now JC-509552N),
20 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 11 Sep 2007).

Hav Rajinder Singh (No. 4465319A now JC-509553N),
18 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Sep 2007)

Hav Hardip Singh Buttar (No. 4464496N now JC-
509554H), 20 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 26 Sep 2007).

To be Nb Sub (Cltk) (GD)

Hav (Cltk) Jaya Chandran V (No. 4467180M now JC-
509550M), 01 Sep 2007)

Hav (Cltk) Ganga Ram (No. 4467183A now JC-509551P),
10 Oct 2007*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Cltk) (GD)
with effect from 01 Sep 2007).

Hav (Cltk) Prem Chand (No. 4462015X now JC-
509555L), 09 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Cltk) (GD)
with effect from 01 Oct 2007).

THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Prakash Kumar (No. 5032542P now JC-569947H),
01 Mar 2007@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 10 Jan 2007).

Hav Jagtar Singh (No. 4557653F now JC-569948I),
30 Mar 2007@.

@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2007)

Hav Rajpal Singh (No. 7430757M now JC-569949N),
01 Apr 2007.

Hav Glad Masih (No. 4557688X now JC-569950H),
25 Apr 2007#

Hav Sukh Nandan (No. 4558226X now JC-569951L),
25 Apr 2007#

Hav Bansode Babai Dnyandeo (No. 4558265W now
JC-569952N), 01 May 2007#

Hav Balbir Singh (No. 4558401F now JC-569953W),
21 May 2007#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Apr 2007)

Hav Bahadur Singh (No. 4558915Y now JC-569954Y),
01 Apr 2007.

Hav Purshotam Singh (No. 4558917K now JC-569955F),
01 Apr 2007.

Hav Ram Kishan (No. 4554453A now JC-569956K),
01 May 2007.

Hav Tara Chand (No. 4555842M now JC-569957M),
03 May 2007\$.

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 May 2007).

Hav Kamble Mahadeo Rama (No. 4559908P now JC-
569958P), 01 May 2007.

Hav Darwan Singh (No. 4554314W now JC-569959X),
21 Jul 2007\$\$.

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 18 Jun 2007).

Hav Satbir (No. 4557636F now JC-569960M), 01 Jul
2007.

Hav Inderpal Singh (No. 4555547K now JC-569961P),
02 Aug 2007##.

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Aug 2007).

Hav Birkit Hussain (No. 4554699Y now JC-569962X),
01 Aug 2007.

Hav Chhabi Nandan Singh (No. 4557639P now JC-
569963A), 01 Aug 2007.

Hav Shiv Singh (No. 4555803N now JC-569964H),
03 Apr 2007@.

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Apr 2007).

Hav Gharoo Ram (No. 4557166F now JC-569965L),
21 Jul 2007@@.

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 27 Apr 2007).

Hav Kamble Dharma Ganu (No. 4558605N now JC-
569966N), 05 Jun 2007#.

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2007).

Hav Rajinder Kumar Rathor (No. 4556805L now JC-
569967W), 14 Jun 2007##.

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jun 2007).

Hav Krishan Pal Singh (No. 4556842Y now JC-
569968Y), 01 Jun 2007.

Hav Rajender Singh (No. 13617106A now JC-569969F),
21 Jul 2007###.

(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2007).

Hav Ram Naresh Singh (No. 4069745X now JC-
569970W), 05 Sep 2007\$.

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2007).

Hav Vidhya Bhushan (No. 4553376K now JC-569971Y),
09 Jun 2007\$\$.

Hav Kumar Kadam Prakash Bhimrao (No. 4557106M
now JC-569972F), 11 Jun 2007\$.

Hav Lilamani Lamsal (No. 4557243L now JC-569973K),
09 Jun 2007\$.

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 22 Mar 2007).

Hav Dharmender Kumar (No. 4556207N now JC-
569974M), 26 Jul 2007\$\$\$.

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 13 Jun 2007).

Hav Narender Singh (No. 4554790P now JC-569975P),
17 Jul 2007&.

& (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2007).

Hav Krishan Kumar (No. 4559837Y now JC-569976X),
30 Jul 2007&&.

&& (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 13 Jul 2007).

Hav Rajendra Singh (No. 4560166M now JC-569977A),
01 Aug 2007.

Hav Clk (GD) Dinesh Kumar (No. 4562543W now JC-
569978H), 06 Aug 2007(GD)&&&.

&&& (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Aug 2007).

Hav Haren Boro (No. 4554833Y now JC-569930P),
01 Jun 2007.

Hav Rameshwar Ram (No. 4554874H now JC-
569931X), 01 Jun 2007.

Hav Dhan Singh (No. 4558973H now JC-569932A),
01 Jun 2007.

Hav Hari Singh Bhatl (No. 4559045Y now JC-569933H),
03 Jul 2007@.

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 16 Jun 2007).

Hav Kamlesh Chandra Biswas (No. 4555722N now JC-
569934L), 01 Jul 2007.

Hav Pushkar Singh (No. 4555617X now JC-569935N),
01 Jul 2007.

Hav Rakesh Chandra (No. 4560220P now JC-569936W),
01 Jul 2007.

Hav Ck (Gd) Raj Kunnur (No. 4562541I now JC-569937Y), 02 Apr 2007@-@

@-@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2007).

Hav Ck (Gd) Anil Kumar (No. 4562542N now JC-569938F), 01 Jun 2007

Hav Budh Ram (No. 4560320A now JC-569939K), 01 Jun 2007

Hav Nurender Singh (No. 4554947K now JC-569940Y), 01 Jul 2007

Hav Kumar N (No. 4556133K now JC-569941I), 01 Jul 2007

Hav Rajendra Singh (No. 4557139X now JC-569942K), 05 Jul 2007#

Hav Rajindra Singh (No. 4557793I now JC-569943M), 05 Jul 2007#

Hav Kuldip Singh (No. 4557480P now JC-569944P), 05 Jul 2007#

Hav Rup Lal (No. 4557585Y now JC-569945X), 05 Jul 2007#

Hav Run Singh (No. 4557637K now JC-569946A), 05 Jul 2007#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2007).

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Pradeepan Chamarthayil (No. 2591610M now JC-439903F), 14 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav K Raji Reddy (No. 2589012W now JC-439902Y), 27 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mukundan P (No. 2591005Y now JC-439928N), 05 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav M Ragupathy (No. 2588784F now JC-439921K), 23 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Annapu Reddi Venkata Reddy (2589649A now JC-439922M), 23 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Sanjaya Kumar K (2591332K now JC-4399121I), 15 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav R Mahesh Kumar (2601667X now JC-439923P), 27 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Devendrappa MK (2592564P now JC-439938X), 17 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Vinayagam K (2594887W now JC-439937P), 04 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ellapu Sreenivasa Rao (2591871A now JC-439927L), 11 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Reji Kumar K (2592579X now JC-439939A), 17 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav A Jeyaraj (2591267P now JC-4399431I), 08 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav S Syed Sirajudeen (13751843H now JC-439930Y), 20 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Harindran (25918721I now JC-439951I), 19 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

TO BE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mohan Lal (No. 3986335X now JC-520656Y), 06 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2007 on pay and allowances).

Hav Om Prakash (No. 3986529A now JC-520657F), 08 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2007 on pay and allowances).

Hav Daler Singh (No. 3984956X now JC-520658K),
26 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 Jul 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kesar Singh (No. 3985113W now JC-520659M),
29 Oct 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ravinder Kumar (No. 3985221A now JC-520660F),
29 Oct 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 17 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jayoti Parkash (No. 3987008Y now JC-520661K),
30 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jyoti Parkash (No. 3984684H now JC-520662M),
18 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Saini (No. 3986103Y now JC-520663P),
20 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hukam Chand (No. 3986333M now JC-520664X),
13 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Lal (No. 3984861X now JC-520665A),
18 Dec 2007+

-(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kishore Kumar (No. 3984640L now JC-520666H),
29 Oct 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 23 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Sarjit Singh (No. 3984688Y now JC-520667L),
29 Oct 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Simer Singh (No. 3984911X now JC-520668N),
20 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Jai Kishan Thakur (No. 3986600H now JC-520669W), 24 Sep 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Hoshier Ali Khan (No. 3987834Y now JC-520670L), 24 Sep 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Uddham Singh (No. 3986946M now JC-520672W),
15 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 12 Jul 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Janak Singh (No. 3985841W now JC-520673Y),
26 Sep 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 Jul 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Davinder Singh (No. 3985540M now JC-520674F),
03 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Om Prakash (No. 3985463H now JC-520675K),
03 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mahendar Singh (No. 3985571M now JC-520676M),
03 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Kumar (No. 3986980M now JC-520677P),
15 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chand (No. 3987001P now JC-520678X),
15 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal (No. 3991036H now JC-520679A),
31 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Tilak Raj (No. 3986081L now JC-520680P),
11 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Darshan Singh (No. 3986759N now JC-520681X),
01 Sep 2007+

Hav Krishan Singh (No. 3986763W now JC-520682A),
18 Sep 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Singh (No. 3986829F now JC-520683H),
20 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Ram (No. 3986185M now JC-520684I),
11 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 3986834M now JC-520685N),
20 Nov 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Naresh Kumar (No. 3987003A now JC-520686W),
15 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 14 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Subash Chand (No. 3986039M now JC-520687Y),
22 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Dass (No. 3985753A now JC-520688F),
30 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Milap Chand Chambel (No. 3986482A now JC-
520689K), 11 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Gandharv Singh (No. 3988026N now JC-520690Y),
11 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3990028X now JC-520691F),
11 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Paul (No. 3985267H now JC-520692K),
14 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 29 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ajay Singh (No. 3986277Y now JC-520693M),
22 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 3986249M now JC-520694P),
26 Dec 2007+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Surjeet Singh (No. 3985374K now JC-520695X),
14 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dalel Singh (No. 3986742A now JC-520696A),
26 Dec 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (No. 3986620W now JC-520697H),
11 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kumar (No. 3985439M now JC-520698I),
14 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 09 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 3986725A now JC-520699N),
11 Jan 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Londhe Virthal Namdeo (No. 2784530W now JC-
459748M), 24 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 26 Jul 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pawar Balasaheb Vitthoba (No. 2783515P now JC-
459749P), 14 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 04 Aug 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Rane Dayanand Janaha (No. 2785353N now JC-
459750K), 14 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pawar Vijay Vishvanath (No. 2784842M now JC-
459751M), 30 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 10 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ghadage Arjun Tukaram (No. 2785526A now JC-459752P), 07 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Balaso Narayan Pawar (No. 2781925M now JC-459753X), 13 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Manoj Kumar (No. 2783802Y now JC-459754A), 30 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bhikaji Mahadev Khot (No. 2781635P now JC-459755H), 25 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dhane Vitthal Sarjerao (No. 2781636X now JC-459756L), 25 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Abasaheb Eknath (No. 2785084M now JC-459757N), 01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kavar Gajanan Laxman (No. 2786933P now JC-459758W), 18 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Khatal Rajendra Chindhu (No. 2787242P now JC-459759Y), 10 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Vajir Ali (No. 2783727A now JC-459760N), 03 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bhosale Ganesh Abajirao (No. 2783551A now JC-459761W), 17 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Thakare Dilip Digambar (No. 2784074W now JC-459763F), 01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shivappa Magadam (No. 2783955H now JC-459764K), 08 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Khade Tanaji Gundappa (No. 2785532N now JC-459765M), 20 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jagatap Pandurang Shripati (No. 2782788L now JC-459766P), 06 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Thorat Chatrabhuj Achutao (No. 2783572W now JC-459767X), 22 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shaik Basha (No. 2787782N now JC-459768A), 11 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pawane Satish Ramkrishna (No. 2786850K now JC-459769H), 08 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 04 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Manogaran D (No. 2779864F now JC-459770X), 01 Jan 2008

Hav Chirke Haribhau Patilba (No. 2785174N now JC-459771A), 01 Jan 2008

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Tara Chand (No. 3179119A now JC-490198W), 17 Nov 2007

Hav Jasvir Singh (No. 3182935F now JC-490199Y), 17 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Samunder Singh (No. 3179275K now JC-490200H), 09 Dec 2007

Hav Dhirandra Singh Rana (No. 3179609N now JC-490201L), 20 Dec 2008

Hav Mahipal Singh (No. 3179319W now JC-490202N), 01 Jan 2008

Hav Dilbag Singh (No. 3181487N now JC-490203W), 02 Jan 2008

Hav Harendra Singh Khokar (No. 319565A now JC-490204Y), 17 Jan 2008

Hav Satyaveer Singh (No. 3178855M now JC-490205F), 01 Feb 2008

Hav Surender Pal (No. 3178869M now JC-490206K), 01 Feb 2008

Hav Narendra Pal (No. 3183556X now JC-490207M), 01 Feb 2008

Hav Ompal Singh (No. 3186044W now JC-490208P), 01 Feb 2008

Hav Badam Singh (No. 3179011H now JC-490209X), 01 Feb 2008

Hav Rajesh Kumar (No. 3179016F now JC-490210M), 01 Feb 2008

Hav Ram Swaroop Mahala (No. 3181837P now JC-490211P), 01 Feb 2008

Hav Krishan Kumar (No. 3180322H now JC-490212X), 01 Feb 2008

Hav Subhay Singh Kuntal (No. 3182056N now JC-490213A), 01 Feb 2008

Hav Krishanveer Singh Duboon (No. 2594084K now JC-490214I), 01 Feb 2008

Hav Ghani Ram Dhaluka (No. 2594207I now JC-490215L), 01 Feb 2008

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Rati Ram (No. 3178457L now JC-490216N), 01 Nov 2008

Hav/Clk Suhe Singh Yadav (No. 3178086N now JC-490217W), 01 Jan 2008

Hav Subhash Chander Gadhwal (No. 3178643F now JC-490183N), 29 Sep 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Hakam Singh Jat (No. 3179570M now JC-490184W), 01 Aug 2007*

Hav Kishana Ram (No. 2593029F now JC-490185Y), 13 Sep 2007

Hav Rahul Singh (No. 2593933N now JC-490186F), 22 Sep 2007

Hav Dabhi (No. 1378603A now JC-490187K), 11 Nov 2007

Hav Ram Pratap (No. 3179568P now JC-490188M), 11 Nov 2007

Hav Yashpal Singh (No. 31616829H now JC-490189P), 01 Dec 2007

Hav Ishwar Singh (No. 3180237A now JC-490190K), 01 Dec 2007

Hav Dana Ram (No. 3182201A now JC-490191M), 01 Dec 2007

Hav Daya Chand (No. 3179713F now JC-490192P), 01 Jan 2008

Hav Oin Prakash (No. 3181118W now JC-490193X), 01 Jan 2008

Hav Verender (No. 3181227H now JC-490194A), 01 Jan 2008

Hav Rajpal Singh, SM (No. 3181773P now JC-490195H), 01 Jan 2008

Hav Shri Chand (No. 3181252F now JC-490196I), 01 Jan 2008

Hav Komal Singh (No. 3183945X now JC-490197N), 01 Jan 2008

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Jogender (No. 2883709M now JC-470172A), 28 Nov 2007/S-09 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ranadhir Singh (No. 2881014L now JC-470173I), 05 Nov 2007/S-19 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Girwar Singh (No. 2882277W now JC-470174L), 05 Oct 2007/S-01 Jun 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Surin Singh (No. 2880634P now JC-470175N), 05 Nov 2007/S-01 Jun 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Modha Vinza Bogha (No. 2884079K now JC-470176W), 23 Nov 2007/S-03 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Singh (No. 2886006W now JC-470177Y), 18 Dec 2007/S-23 Oct 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Daya Nand (No. 2884414H now JC-470178F),
20 Dec 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Om Prakash (No. 2886082H now JC-470179K),
11 Dec 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Gharsi Ram (No. 2880089W now JC-470180Y),
01 Dec 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Om Prakash (No. 3989931P now JC-470181F),
02 Dec 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Jai Singh (No. 3991000K now JC-470182K),
18 Nov 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Gopal Singh (No. 3178369P now JC-470183M),
20 Dec 2007/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Abullass Ansari (No. 2880293P now JC-470184P),
29 Dec 2007/S-22 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav/Clk Suresh Kumar (No. 2882443Y now JC-470185X), 02 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Mirja Meharban Beg (No. 2883154W now JC-470186A), 03 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Ajaipal Singh (No. 2882487W now JC-470187H),
14 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Oumvir (No. 2881696F now JC-470188L), 01 Dec 2007

Hav Chatar Singh (No. 3989974K now JC-470189N),
19 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Ishwar Singh (No. 2880348N now JC-470190H),
05 Jan 2008/S-01 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Karam Bir (No. 2883486A now JC-470191L),
31 Dec 2007/S-12 Nov 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Nov 2007 without effect on pay and allces).

Hav Jai Singh (No. 2884117P now JC-470192N),
29 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Jai Bhagwan (No. 2884180K now JC-470193W),
07 Jan 2008/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Satyendra Kumar (No. 2882182W now JC-470194Y), 03 Dec 2007/S-01 Dec 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allces).

Hav Dhani Ram (No. 2881518Y now JC-470195F),
01 Jan 2008*

Hav Naresh Kumar (No. 2879946Y now JC-470196K),
03 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Mawa Singh (No. 2883725K now JC-470197M),
21 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Babu Lal Choudhary (No. 2882578A now JC-470198P), 04 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Amar Pal (No. 2884112W now JC-470199X),
01 Jan 2008*

Hav Jaivir Singh Rana (No. 2882122F now JC-470200F),
21 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Halim Ansari (No. 2882724P now JC-470201K),
21 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allces).

Hav Ishwar Singh Chahar (No. 2883366F now JC-470202M), 04 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Satbir Singh (No. 2883409L now JC-470203P), 04 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Chatrapal Singh Rathore (No. 2883440X now JC-470204X), 01 Jan 2008

Hav Om Pal (No. 2884659Y now JC-470205A), 01 Jan 2008

Hav Mahipal Singh (No. 2886081A now JC-470206H), 02 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Satyaveer Singh (No. 2888188N now JC-470207L), 14 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Nahar Singh Bhanu (No. 2885066Y now JC-470208N), 04 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kumar Pal (No. 2887145M now JC-470209W), 04 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (No. 2883493W now JC-470210L), 01 Jan 2008

Hav Vajir Singh (No. 3990449A now JC-470211N), 21 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh (No. 3990307H now JC-470212W), 21 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rashmi Khan (No. 2884438M now JC-470213Y), 01 Jan 2008

Hav Devi Singh Beniwal (No. 2884093W now JC-470214F), 07 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Omveer Singh (No. 2883143K now JC-470215K), 07 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Tara Singh Jadon (No. 2883240F now JC-470216M), 07 Jan 2008/S-01 Jan 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Ram (No. 2881165K now JC-470217P), 01 Jan 2008

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Ming Mar Gurung (No. 5346967P now JC-612725K), 29 Nov 2007*

*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & and allowances wef 16 May 2007).

Hav Lal Mane Pun (No. 5345955X now JC-612726M), 12 Nov 2007*

*(Gtd ante dt seniority without effect on pay & and allowances wef 01 Oct 2007).

Hav Eak Bahadur Gicha (No. 5345967H now JC-612727P), 01 Nov 2007

Hav Singh Bahadur Gurung (No. 5346282W now JC-612728X), 01 Nov 2007

Hav Tara Prasad Thapa (No. 5346125K now JC-612729A), 01 Nov 2007*

*(Gtd notional seniority w/o effect on pay & and allowances wef 14 Mar 2006).

Hav Khem Prasad Gurung (No. 5346116H now JC-612730P), 05 Nov 2007*

*(Gtd ante dt seniority w/o effect on pay & and allowances wef 01 Nov 2007).

Hav Bal Bahadur Thapa (No. 5346120L now JC-612731X), 05 Nov 2007*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & and allowances wef 01 Nov 2007).

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5345913F now JC-612732A), 16 Nov 2007*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & and allowances wef 01 Nov 2007).

Hav Dhan Singh Gharti (No. 5345943Y now JC-612733H), 16 Nov 2007*

*(Gtd ante dt seniority w/o effect on pay & and allowances wef 01 Nov 2007).

Hav Karna Prasad Gurung (No. 5346638Y now JC-612734N), 01 Nov 2007

Hav/Clk Shri Krishna Roy (No. 5345578H now JC-612735N), 01 Dec 2007

Hav Bhim Bahadur Gurung (No. 5346292A now JC-612736W), 01 Dec 2007

Hav Bhadra Bahadur Thapa (No. 5346126M now JC-612737Y), 01 Dec 2007

Hav Bhoj Bahadur Thapa Magar (No. 5346127P now JC-612738F), 01 Dec 2007

Hav Padam Bahadur Ale (No. 5346793A now JC-612739K), 01 Dec 2007

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Sukhwinder Singh (No. 7430572L now JC-499901A), 10 Dec 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Sukhwinder Singh (No. 3387577P now JC-499902H), 15 Dec 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Tarsem Singh (No. 3386116Y now JC-499903L), 22 Nov 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Sep 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Sukhdev Singh (No. 3387038Y now JC-499904N), 22 Nov 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Sep 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Singh (No. 3386897X now JC-499905W), 26 Nov 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Suba Singh (No. 3386981X now JC-499906Y), 26 Nov 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Ranjit Singh, SM (No. 3382637P now JC-499907F), 26 Nov 2007

(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances.)

Hav Harinder Singh (No. 3386662L now JC-499908K), 01 Dec 2007

Hav Amarjit Singh (No. 3389059N now JC-499909M), 01 Dec 2007

THE RAJPUT REGIMENT

To be Naib Subedar Clerk

Hav/Clk Ram Charan (No. 2984456K now JC-480086H), 01 Oct 2007

Hav/Clk Kuldip Singh (No. 2984752P now JC-480087L), 01 Oct 2007

Hav/Clk Kanai Lal Biswas (No. 2984821A now JC-480088N), 01 Oct 2007

Hav/Clk Vinod Kumar Soharu (No. 2985339L now JC-480089W), 01 Oct 2007

Hav/Clk Basir Mollah (No. 2985394F now JC-480090L), 01 Nov 2007

Hav/Clk Pradip Kumar (No. 2985396M now JC-480091N), 01 Nov 2007

Hav/Clk Satya Narayan Sah (No. 2985402P now JC-480092W), 01 Nov 2007

Hav/Clk Nigam Kumar (No. 2985403X now JC-480093Y), 01 Dec 2007

Hav/Clk Bishan Singh Dhala (No. 2985423L now JC-480094F), 01 Dec 2007

To be Naib Subedar

Hav Ajai Pal Singh (No. 7430621H now JC-480095K), 01 Oct 2007

Hav Birendra Kumar (No. 2985443Y now JC-480096M), 01 Oct 2007

Hav Surendra Singh Chauhan (No. 2987187N now JC-480097P), 07 Oct 2007

Hav Mangal Chakraborty (No. 2985610K now JC-480098X), 01 Nov 2007

Hav Daya Ram (No. 2984737A now JC-480099A), 30 Nov 2007

Hav Anil Kumar Singh (No. 2988458M now JC-480100K), 01 Dec 2007

Hav Babu Singh (No. 2984571K now JC-480101M), 01 Dec 2007

Hav Dharmendra Singh (No. 2985683W now JC-480102P), 01 Dec 2007

Hav Chatar Singh Gurjar (No. 2989187M now JC-480103X), 01 Dec 2007

Hav Dalip Kumar (No. 2985529X now JC-480104A), 01 Dec 2007

Hav Ram Janki Singh (No. 2985871X now JC-48010511),
01 Dec 2007

Hav Kalidin Singh (No. 2984910Y now JC-48010611),
01 Dec 2007

JAK RIB

To be Substantive Nb Sub (GD)

Hav Resham Singh (No. 13751899P now JC-580595W),
19 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Kushal Singh (No. 13752794X now JC-580596Y),
06 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Raj Kumar (No. 13752993L now JC-580597F),
11 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Oct 2007)

Hav Gurnam Singh (No. 13748852Y now JC-580598K),
19 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 26 Oct 2007)

Hav Ravi Kumar (No. 13749511A now JC-580599M),
24 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Nov 2007)

Hav Sham Lal (No. 13751927W now JC-580600X),
06 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Rash Paul (No. 13750510K now JC-580601Y),
01 Dec 2007*

Hav Milap Chand (No. 13750523F now JC-5806021),
08 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Sajjan Singh (No. 13751913W now JC-580603K),
13 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Sudhir Singh (No. 13751987L now JC-580604M),
15 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Milap Chand (No. 13750204P now JC-580605P),
06 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Balwinder Singh (No. 13752138W now JC-
580606X), 01 Dec 2007

Hav Dhoop Ram (No. 13752229A now JC-580607A),
01 Dec 2007

Hav Bhagat Ram Bansal (No. 13752232A now JC-
5806081H), 15 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Lal Singh (No. 13750738A now JC-5806091),
07 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Dershan Singh (No. 13750725H now JC-580610A),
07 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2007)

Hav Rajendar Singh (No. 13748230X now JC-580611H),
07 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Jan 2008)

Hav Uttam Singh (No. 13748655W now JC-5806121),
07 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Jan 2008)

Hav Sher Bahadur (No. 13750061A now JC-580613A),
01 Jan 2008

Hav Karnal Singh (No. 13751826H now JC-580614W),
01 Jan 2008

Hav Babu Ram Thapa (No. 13750039P now JC-
580615Y), 01 Jan 2008

Hav Shushil Kumar Thapa (No. 13750297P now JC-
580616F), 01 Jan 2008

Hav Ganesh Bahadur Mall (No. 13750584Y now JC-
580617K), 01 Jan 2008

Hav Prem Lal (No. 13749744F now JC-580618M),
01 Jan 2008

Hav Shadi Lal (No. 13749872Y now JC-580619P),
01 Jan 2008

Hav Arun Kumar (No. 13749875M now JC-580620K),
01 Jan 2008

Hav Kumar Thapa (No. 13750620Y now JC-580621M),
01 Jan 2008

Hav Rajinder Singh (No. 13751937A now JC-580622P),
03 Jan 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2007)

Hav Paramjit Singh (No. 13751980F now JC-580623X),
01 Jan 2008

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Arjun Singh (No. 4065736Y now JC-530269L),
24 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Harshpal Singh (No. 4069952K now JC-530270A),
12 Nov 2007/03 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jaibir Singh (No. 4064340H now JC-530271H),
26 Nov 2007/31 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dinesh Singh Rawat (No. 4076484X now JC-530272L), 14 Dec 2007/31 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ummed Singh (No. 4066795X now JC-530273N),
18 Dec 2007/31 Oct 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dalbir Singh (No. 4066764X now JC-530277K),
04 Dec 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bharat Singh Ramola (No. 4066743F now JC-530278M), 01 Nov 2007

Hav Shishupal Singh (No. 4066228P now JC-530279P),
13 Dec 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Krishana (No. 4067744W now JC-530280K),
01 Nov 2007

Hav Gabar Singh (No. 4065936P now JC-530281M),
24 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mahendra Singh (No. 4068368A now JC-530282P),
06 Dec 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jaman Singh Negi (No. 4068204K now JC-530283X), 01 Nov 2007

Hav Bhagwati Prasad (No. 4066137L now JC-530284A),
24th Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bhajan Singh (No. 4066239F now JC-530285H),
24th Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Yogeshwar Singh Negi (No. 4072819M now JC-530286L), 14 Dec 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Karan Singh (No. 4066756Y now JC-530287N),
24th Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hukam Singh (No. 4066618X now JC-530288W),
01 Dec 2007

Hav Bachan Singh Rawat (No. 4068016H now JC-530289Y), 19 Dec 2007/01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Raghubir Singh Rawat (No. 4069384K now JC-530290N), 19 Dec 2007/01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Dharendra Singh (No. 4065769K now JC-530291W),
01 Dec 2007

Hav Khim Singh (No. 4067791N now JC-530292Y),
13 Dec 2007/01 Dec 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Narendra Singh (No. 4068617N now JC-530274W), 28 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Swami Nath Yadav (No. 4067391F now JC-530275Y), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Jaipaul Kaundil (No. 4065947F now JC-530276F), 01 Nov 2007

To be Nb Sub (Must)

Hav (Must) Virinder Kumar (No. 4067075H now JC-530268H), 02 Dec 2007/12 Sep 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ramesh Ram (No. 4178671K now JC-540270A), 15 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Sita Ram Yadav (No. 4181366H now JC-540265P), 06 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Birender Singh (No. 4181378X now JC-540266X), 06 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Kishan (No. 4181472F now JC-540267A), 06 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kailash Chandra (No. 4178551L now JC-540271H), 23 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Girdh Chandra Joshi (No. 4178724X now JC-540272L), 24 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Chanchal Singh (No. 4178800Y now JC-540273N), 24 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 3177802F now JC-540269L), 14 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jot Singh (No. 4183075F now JC-540268H), 11 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bachi Ram (No. 4179163A now JC-540281M), 18 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwat Singh (No. 4179323P now JC-540282P), 18 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Syam Singh Bisht (No. 4179347Y now JC-540284A), 01 Dec 2007

Hav Kalyan Singh (No. 4179787M now JC-540285H), 01 Dec 2007

Hav Sheo Singh (No. 4180943X now JC-540290N), 17 Dec 2007/01 Dec 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hira Singh Rawat (No. 14701754K now JC-540283X), 30th Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Rajesh Yadava (No. 7430546K now JC-540286L), 01 Dec 2007

Hav Naresh Chandra Durgapal (No. 4181146Y now JC-540287N), 02 Dec 2007/01 Sep 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 4181177Y now JC-540288W), 02 Dec 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Singh Bisht (No. 4181194Y now JC-540289Y), 02 Dec 2007/01 Dec 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Bhagwan (No. 4181596W now JC-540274W), 01 Nov 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Randhir Singh (No. 4181642A now JC-540275Y), 31 Oct 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pooran Singh (No. 4181660H now JC-540276L), 30 Oct 2007/01 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Harish Chandra Singh Rawat (No. 4178611P now JC-540277K), 11 Nov 2007/20 Oct 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chandra Singh (No. 4178664N now JC-540278M), 11 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Satyavir (No. 4181525P now JC-540279P), 17 Nov 2007/01 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Durga Singh (No. 4178025M now JC-540280K), 17 Nov 2007/10 Nov 2007*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov 2007 without effect on pay and allowances).

THE NAGA REGIMENT

Hav Awatar Singh (No. 14701985A now JC-590208K), 01 Dec 2007

S ASHRAF
Under Secy.

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT (DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION)

No. 484, dated 12 September 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

Acting Cmde to be Substantive Cmde

Name, No. & Rank and Subs Rank to be Granted From
40512 Cmde N Banerjee Engg, 01 Feb 2004.

Ranbir Singh
Addl Dir (Pers)
for DG Res & Dev